



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10—नवम्बर 16, 2012 (कार्तिक 19, 1934)

No. 45]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10—NOVEMBER 16, 2012 (KARTIKA 19, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालये

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2012

सेना शाखा

सं. 468, दिनांक 17 अक्टूबर 2012—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति  
करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

दीपक पाटिल (एमआर-07996ए), एएमसी, 16 फरवरी 2011

नारायण विजय प्राल्हाद (एमआर-08686एफ), एएमसी, 17 फरवरी  
2012

सौरभ घोष (एमआर-07415एक्स), एएमसी, 23 फरवरी 2012

विकास धवन (एमआर-08106एक्स), एएमसी, 14 मार्च 2012

ब्रिजेस कान्ति विश्वास (एमआर-08287एक्स), एएमसी, 15 मार्च  
2012

एन नागार्जुना (एमआर-08255एम), एएमसी, 15 मार्च 2012

सर्जन लेफ्टि कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

चंगामयुम प्रेमचंद सिंह (एमआर-08008एफ) (75731), एएमसी,  
10 जनवरी 2012

तेल्कत्वर मोहन रामराव (एमआर-08404एक्स) (75746), एएमसी,  
03 मार्च 2012

रीतू अगरवाल (एमआर-09107डब्ल्यू) (75845), एएमसी,  
29 मार्च 2012

वाई टी राव (एमआर-07283पी) (75688), एएमसी, 05 फरवरी  
2011

कप्तान से मेजर के पद पर

आशुतोष गुप्ता (एमआर-09302एन), एएमसी, 06 फरवरी 2012

सोमाली पटनायक (एमआर-09234एल), एएमसी, 06 फरवरी 2012

सौरभ शर्मा (एमआर-09268वाई), एएमसी, 06 फरवरी 2012  
 अजय वाजपई (एमआर-08584एल), एएमसी, 06 फरवरी 2012  
 भूपेश सैनी (एमआर-08577पी), एएमसी, 06 फरवरी 2012  
 राजेन्द्र कुमार ताराकेश्वर तिवारी (एमआर-09310एम), एएमसी,  
 25 अक्टूबर 2011  
 अनिल कुमार अबोट (एमआर-08543एफ), एएमसी, 06 फरवरी  
 2012  
 अजित सिंह (एमआर-08563पी), एएमसी, 06 फरवरी 2012  
 विपिन सुकुमारन (एमआर-09262एक्स), एएमसी, 06 फरवरी 2012  
 सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमांडर के पद पर  
 प्रियदर्शी पात्रा (एमआर-09059एफ) (75932वाई), एएमसी,  
 31 अगस्त 2011

यश पांडे  
 ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सं. 469, दिनांक 17 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित  
 अधिकारी को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन के रैंक में

लेफ्टि कृष्णा भट्टाचार्य टीए(एन)-1103, एमएनएस(टीए),  
 28 अक्टूबर 2008

बृज कुमार  
 उप सचिव

सं. 470, दिनांक 18 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां  
 करते हैं:--

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (लिपिक एसडी/आईएम) के मूल पद में

सूबेदार लिपिक(एसडी) ए नागराजन (जेसी-307585ए), 15 मार्च  
 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) अन्नाथुरै आर (जेसी-307796एच),  
 04 जनवरी 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) प्रभाकरन यू एम (जेसी-307813एक्स),  
 02 जनवरी 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) देवेंद्रा प्रसाद (जेसी-307837एफ), 10 जनवरी  
 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) सुधीर बाबू एम वी (जेसी-307839एम),  
 03 फरवरी 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) राजिन्द्र प्रकाश (जेसी-305856एन),  
 03 फरवरी 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) राजेन्द्र पॉल (जेसी-305861वाई), 02  
 जनवरी 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) जयकुमारन आर (जेसी-306214एल),  
 02 फरवरी 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) सुरेशा जे (जेसी-306304एम), 04 फरवरी  
 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) फ्रांक्लिन जे (जेसी-306334के), 14 मार्च  
 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) एम सिवानंदम (जेसी-306341ए),  
 03 फरवरी 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) नंदागोपाल एल (जेसी-306360एल),  
 05 मार्च 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) के सोउंदराराजन (जेसी-306543एफ),  
 05 मार्च 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) हेमचंद्रा जोशी (जेसी-306696एल),  
 17 फरवरी 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) सुखलाल (जेसी-306740के), 01 मार्च  
 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) ओम प्रकाश मिश्रा (जेसी-306828एन),  
 03 मार्च 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) शशीधरन एम (जेसी-306895वाई),  
 02 मार्च 2012

सूबेदार लिपिक(एसडी) के मधिवनन (जेसी-306951एम), 07 मार्च  
 2012

सूबेदार (लिपिक एसडी/आईएम) के मूल पद में

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) परशुराम सिंह (जेसी-308487एम),  
 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) जी चंद्राशेखर वासुदेव  
 (जेसी-308506एम), 02 जनवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) एच निशिकांत वामन राव (जेसी-  
 308507पी), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) योनुस एस (जेसी-308516डब्ल्यू),  
 02 जनवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) नेज़ाम टी जे (जेसी-308517वाई),  
02 जनवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) ए लक्ष्मी कौदैया (जेसी-308518एफ),  
01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) मोती गीर गोस्वामी (जेसी-308519के),  
01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(आईएम) राधाकृष्णा उपाध्याय  
(जेसी-308520वाई), 02 जनवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) जितेन्द्र कुमार लाम्बा  
(जेसी-308521एफ), 02 जनवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) रामनाथ सिंह (जेसी-308522के),  
01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) महेश प्रसाद (जेसी-308523एम),  
01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) दुर्गा दत्त पाण्डे (जेसी-308524पी),  
01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) राजेन्द्र नाथ (जेसी-308544एच),  
01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) तुम्मा शिवा शंकरा राव  
(जेसी-308545एल), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) बी प्रसन कुमार पात्रो (जेसी-  
308546एन), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) प्रेसेन्न जी (जेसी-308547डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) अशोक कुमार त्रिपाठी (जेसी-  
308548वाई), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) बलवीर सिंह (जेसी-308549एफ),  
01 मार्च 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) सतीश कुमार एम (जेसी-  
308550डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) राज कुमार सिंह (जेसी-308565वाई),  
05 मार्च 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) सुरेश कुमार (जेसी-308566एफ),  
01 मार्च 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) महेश चन्द्रा शर्मा (जेसी-308567के),  
01 मार्च 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) गणेश सिंह थापा (जेसी-  
308582एक्स), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) राम जीवन राय (जेसी-308583एफ),  
01 मार्च 2012

नायब सूबेदार लिपिक(एसडी) राम कुमार (जेसी-308584के),  
01 मार्च 2012

सूबेदार मेजर (जीडी) के मूल रैंक में

सूबेदार(जीडी) अप्पाचन चंडी (जेसी-307107डब्ल्यू), 01 जुलाई  
2011

सूबेदार(जीडी) ई विमलराज फर्नान्डो (जेसी-307348डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2011

सूबेदार(जीडी) निसानी आनंदा राज (जेसी-307376एच), 01 जुलाई  
2011

सूबेदार(जीडी) विजयन वी (जेसी-307391एक्स), 01 नवम्बर 2011

सूबेदार(जीडी) मोहनन के एल (जेसी-307418के), 01 नवम्बर  
2011

सूबेदार(जीडी) एम चिन्नप्पन (जेसी-307445एन), 01 नवम्बर  
2011

सूबेदार(जीडी) प्रभाकरन एम वी (जेसी-307469एक्स), 02 दिसम्बर  
2011\*

सूबेदार(जीडी) मोहनाचन्द्रन बी (जेसी-307517एम), 01 जनवरी  
2012

सूबेदार(जीडी) श्रीनिवासन के (जेसी-307532एफ), 01 जनवरी  
2012

सूबेदार(जीडी) रघुपथी आर (जेसी-307531वाई), 01 फरवरी 2012

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी गई है)

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार रमा चन्द्रा बारिक (सं. 1482193वाई अब जेसी-  
339800एन), 28 फरवरी 2012&

हवलदार श्याम सुन्दर बोराइ (सं. 1482562एल अब जेसी-  
339801डब्ल्यू), 01 मार्च 2012#

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 1482611एच अब जेसी-339802वाई),  
01 मार्च 2012#

हवलदार ताजबर सिंह (सं. 1482616एफ अब जेसी-339803एफ),  
01 मार्च 2012#

हवलदार बचन सिंह (सं. 1482638ए अब जेसी-339804के),  
01 मार्च 2012#

हवलदार हरीश कुमार रावत (सं. 1482731एफ अब  
जेसी-339805एम), 01 मार्च 2012#

हवलदार सुजोय मंडल (सं. 1482797एक्स अब जेसी-339806पी),  
01 मार्च 2012#

हवलदार गजराज सिंह (सं. 1482830के अब जेसी-339807एक्स),  
01 मार्च 2012#

हवलदार देबराज परिदा (सं. 1482894पी अब जेसी-339808ए),  
19 मार्च 2012#

हवलदार परशोत्तम सिंह (सं. 1482902एच अब जेसी-339809एच),  
01 मार्च 2012#

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार सुवेनजीत बल्लव (सं. 1483461के अब जेसी-339810एक्स), 06 फरवरी 2012\$

हवलदार सुजीत कुमार घोष (सं. 1483460एफ अब जेसी-339811ए),  
10 मार्च 2012+

हवलदार थम्पी के टी (सं. 6390098एफ अब जेसी-339812एच),  
06 मार्च 2012@

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 6390825एन अब जेसी-339813एल),  
05 मार्च 2012#

हवलदार जया कृष्णा दास (सं. 1485562डब्ल्यू अब जेसी-339814एन), 01 मार्च 2012#

हवलदार मोहम्मद ताज (सं. 1485567पी अब जेसी-339815डब्ल्यू),  
01 मार्च 2012#

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद पांडे (सं. 6390905एल अब जेसी-339816वाई), 01 मार्च 2012#

हवलदार देवेन्द्र सिंह सिंघु (सं. 6390908वाई अब जेसी-339817एफ),  
01 मार्च 2012#

हवलदार कचरे बापुसाहेब साकाहारी (सं. 1485578एफ अब जेसी-339818के), 01 मार्च 2012#

नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में

हवलदार भगवान सिंह (सं. 1481957ए अब जेसी-339819एम),  
01 मार्च 2012#

हवलदार बासु देव (सं. 1482070एम अब जेसी-339820एफ),  
01 मार्च 2012#

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 09 अक्तूबर 2010)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 2011)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 31 दिसम्बर 2011)

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 फरवरी 2012)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012)

नायब सूबेदार (सैन्य अभियंता सेवा) के रैंक में

हवलदार सुखदेव (सं. 1534145एफ अब जेसी-332576के), 27 नवम्बर  
2010#

हवलदार शिव कुमार (सं. 1488104एल अब जेसी-332577एम),  
01 नवम्बर 2011#

हवलदार घासी राम कुशवाहा (सं. 1587478के अब जेसी-332578पी),  
03 मार्च 2012@

हवलदार शेख मुहम्मद हुसैन (सं. 1586576एक्स अब जेसी-332579एक्स), 07 दिसम्बर 2011@

हवलदार सामंता चित्रसेन मुदुलि (सं. 15336042एच अब जेसी-332580एम), 30 नवम्बर 2011@

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2010 और 27 अक्तूबर 2011)

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) विजय कुमार यादव (सं. 1579996पी अब जेसी-352033वाई), 01 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 फरवरी  
2012 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) जय सिंह (सं. 1580000के अब जेसी-352041एक्स),  
01 मार्च 2012

हवलदार (जीडी) सिया शरण पटेल (सं. 1580032एम अब जेसी-352042ए), 01 मार्च 2012

हवलदार (जीडी) गुलजार सिंह (सं. 1580122एन अब जेसी-352043एच), 01 मार्च 2012

हवलदार (जीडी) इक्बाल सिंह (सं. 1580152एल अब जेसी-352044एल), 01 मार्च 2012

हवलदार (जीडी) अडसुल शरद लक्ष्मण (सं. 1580170एन अब जेसी-352045एन), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 मार्च  
2012 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) पाटील मछिन्द्र खंडु (सं. 1579832वाई अब जेसी-352053एम), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) रघुबीर सिंह (सं. 1579832वाई अब जेसी-352054पी), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) शुक्ला नागेन्द्रदेव श्रीकृष्णा (सं. 1580189एम अब जेसी-352055एक्स), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) मिश्रा संदीप देवीशंकर (सं. 15577713ए अब जेसी-352056ए), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) कांबले संजय रामु (सं. 1579839एच अब जेसी-352057एच), 02 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) बेडारकर भगवान दुधासम (सं. 1580213एक्स अब जेसी-352058एल), 12 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) राकेश कुमार तिवारी (सं. 1580322के अब जेसी-352059एन), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) गजराज सिंह शखतावत (सं. 1580475एन अब जेसी-352060एच), 03 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) शिव कुमार सिंह (सं. 15371379के अब जेसी-352061एल), 03 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) सेरासिया हसन भाई इस्माईल भाई (सं. 1580538एल अब जेसी-352062एन), 03 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) चौधरी विलाश भगवान (सं. 1580548पी अब जेसी-352063डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) सतनाम सिंह (सं. 1580611वाई अब जेसी-352064वाई), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) मुले राजु दामु (सं. 1580673वाई अब जेसी-352065एफ), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) पापा राम जजडा (सं. 1580730पी अब जेसी-352066के), 07 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) काले कैलाश त्रिंबक (सं. 1580846एल अब जेसी-352067एम), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) सुरजीत सिंह (सं. 1580847एन अब जेसी-352068पी), 04 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) गुरदेव सिंह (सं. 1581001वाई अब जेसी-352069एक्स), 03 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) जगजीत सिंह पाल (सं. 1581064एफ अब जेसी-352070एम), 04 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) बलविंदर सिंह (सं. 1581518के अब जेसी-352071पी), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) लवान्ड अरूण शिवाजी (सं. 1581852एल अब जेसी-352072एक्स), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) धर्मवीर सिंह (सं. 1577762एम अब जेसी-352073ए), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) दलजीत सिंह (सं. 1578467डब्ल्यू अब जेसी-352074एच), 01 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) बडे लाल (सं. 1579802एफ अब जेसी-352119एक्स), 09 मई 2012

हवलदार (जीडी) गायकवाड मारुती जलंदर (सं. 1580192एम अब जेसी-352120एम), 22 मई 2012

हवलदार (जीडी) चरनजीत सिंह (सं. 1580199डब्ल्यू अब जेसी-352121पी), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) तरसेम सिंह (सं. 1580377एन अब जेसी-352122एक्स), 13 मई 2012

हवलदार (जीडी) सोहरब खान (सं. 1580459डब्ल्यू अब जेसी-352123ए), 13 मई 2012

हवलदार (जीडी) कदम लक्ष्मण यशवंत (सं. 1580725के अब जेसी-352124एच), 04 जून 2012

हवलदार (जीडी) अमरीक सिंह (सं. 1578531एच अब जेसी-352125एन), 16 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) विजय सिंह (सं. 1578911एफ अब जेसी-352131वाई), 05 मई 2012

हवलदार (जीडी) राना सिंह (सं. 1579151डब्ल्यू अब जेसी-352132एफ), 04 मई 2012

हवलदार (जीडी) सतपाल सिंह (सं. 1579312एन अब जेसी-352133के), 21 मई 2012

हवलदार (जीडी) अब्दुल गनी (सं. 1579333के अब जेसी-352134एम), 29 मई 2012

हवलदार (जीडी) राजेन्द्र प्रसाद (सं. 1579441एन अब जेसी-352135पी), 09 मई 2012

हवलदार (जीडी) राजेन्द्र कुमार (सं. 1579571डब्ल्यू अब जेसी-352136एक्स), 24 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) लखमीर सिंह (सं. 1579592एम अब जेसी-352146एफ), 01 जून 2012

हवलदार (जीडी) ठोकल लालजी भानुदास (सं. 15563206एफ अब जेसी-352147के), 01 जून 2012

हवलदार (जीडी) कुलबीर सिंह (सं. 15563856पी अब जेसी-352148एम), 01 जून 2012

हवलदार (जीडी) झगडे धैर्यशील सुभान (सं. 15564547वाई अब जेसी-352149पी), 01 जून 2012

हवलदार (जीडी) यदुवीर सिंह (सं. 15569248के अब जेसी-352150के), 01 जून 2012

हवलदार (जीडी) जसविंदर सिंह (सं. 15569900के अब जेसी-352151एम), 01 जून 2012

हवलदार (जीडी) जाधव भगवान विठल (सं. 1579638के अब जेसी-352152पी), 01 जून 2012

हवलदार (जीडी) गोगवले सुनील लक्ष्मण (सं. 1579642एम अब जेसी-352153एक्स), 12 जून 2012

हवलदार (जीडी) मोहम्मद अरशद (सं. 1579675एक्स अब जेसी-352154ए), 01 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) हरजिन्दर सिंह (सं. 1579535एल अब जेसी-352079एफ), 27 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) मोहम्मद रिजवान अन्सारी (सं. 1580138वाई अब जेसी-352080डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) मोहम्मद मुस्तकीम (सं. 1580176पी अब जेसी-352081वाई), 10 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) आत्मा सिंह (सं. 1580200ए अब जेसी-352082एफ), 10 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) घीघा राम जाट (सं. 1580247एल अब जेसी-352083के), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) गोपाल सिंह (सं. 1580311एक्स अब जेसी-352084एम), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) हनुमान दत्ता सिंह (सं. 1580317वाई अब जेसी-352085पी), 03 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) अशोक कुमार गुप्ता (सं. 1580318एफ अब जेसी-352086एक्स), 10 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) रती राम (सं. 1580369पी अब जेसी-352087ए), 02 मई 2012

हवलदार (जीडी) बलविन्दर सिंह (सं. 1580423एक्स अब जेसी-352088एच), 23 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) धर्मपाल सिंह (सं. 1583284के अब जेसी-352089एल), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) रणजीत सिंह (सं. 1579152वाई अब जेसी-352090ए), 28 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) राजेन्द्र सिंह (सं. 1580582पी अब जेसी-352091एच), 16 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) कुलदीप सिंह (सं. 1580994डब्ल्यू अब जेसी-352092एल), 04 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) गुरदयाल सिंह (सं. 1581004एम अब जेसी-352093एन), 04 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) तरसेम सिंह (सं. 1581052एम अब जेसी-352094डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) अमतपाल सिंह (सं. 1581081एफ अब जेसी-352095वाई), 01 मई 2012

हवलदार (जीडी) सोलांकी हरदास पुना (सं. 1581425पी अब जेसी-352096एफ), 04 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) धोबी नरेन्द्र प्रसाद चंद्रीका प्रसाद (सं. 1581466वाई अब जेसी-352097के), 04 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) इन्द्रपाल सिंह (सं. 1581485के अब जेसी-352098एम), 04 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) ओंकार सिंह (सं. 1581597के अब जेसी-352099पी), 30 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) कर्म सिंह (सं. 1581670एक्स अब जेसी-352100वाई), 20 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) भोसलें संतोश विनायक (सं. 1581861एम अब जेसी-352101एफ), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) चौगले बबन रंगराव (सं. 1581894एक्स अब जेसी-352102के), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) जगजीत सिंह (सं. 1583677ए अब जेसी-352103एम), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) सुखविन्दर सिंह (सं. 1583837पी अब जेसी-352104पी), 03 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) जगदेव सिंह (सं. 1577252एल अब जेसी-352105एक्स), 10 अप्रैल 2012

हवलदार (जीडी) बलवन्त सिंह (सं. 1577677के अब जेसी-352106ए), 04 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) मंगरूलकर प्रकाश जर्नादन (सं. 1578443एम अब जेसी-352111एल), 05 मई 2012

हवलदार (जीडी) अमरजीत सिंह (सं. 1578993पी अब जेसी-352112एन), 05 मई 2012

हवलदार (जीडी) अब्दुल कलाम खान (सं. 1579146एल अब जेसी-352113डब्ल्यू), 04 मई 2012

हवलदार (जीडी) समई सिंह (सं. 1579382एम अब जेसी-352114वाई), 04 मई 2012

हवलदार (जीडी) प्रेम चन्द्र पांडे (सं. 1579343एन अब जेसी-352115एफ), 04 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) के रैंक में

हवलदार/क्लर्क (एसडी) राम नाथ पाल (सं. 1582899एच अब जेसी-352031एन), 27 फरवरी 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) देवेन्द्र कुमार (सं. 6933243एम अब जेसी-352032डब्ल्यू), 10 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार/क्लर्क (एसडी) सतेन्द्र कुमार (सं. 6933269एफ अब जेसी-352034एफ), 01 मार्च 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) कृष्ण पाल (सं. 6933274एम अब जेसी-352035के), 01 मार्च 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) जितेन्द्र कुमार (सं. 6933283एन अब जेसी-352036एम), 01 मार्च 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) दीवान सिंह (सं. 6933294ए अब जेसी-352037पी), 01 मार्च 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) जुगबीर सिंह (सं. 6933525एल अब जेसी-352038एक्स), 01 मार्च 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) ध्रुप सिंह (सं. 1583190एम अब जेसी-352039ए), 01 मार्च 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) पवार सुरेश अगतराव (सं. 1583353पी अब जेसी-352040पी), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

हवलदार/क्लर्क (एसडी) पी राजु कुमार सिंघा (सं. 1583558के अब जेसी-352046डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) नंदन सिंह (सं. 1583814एन अब जेसी-352047वाई), 02 अप्रैल 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) राम नरेश पाल (सं. 6933939एक्स अब जेसी-352048एफ), 02 अप्रैल 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) संतोष आर (सं. 1584267डब्ल्यू अब जेसी-352049के), 02 अप्रैल 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) राम यज्ञ (सं. 1584285वाई अब जेसी-352050वाई), 02 अप्रैल 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) विजय पाल सिंह (सं. 1584289पी अब जेसी-352051एफ), 02 अप्रैल 2012

हवलदार/क्लर्क (एसडी) प्रकाश वी (सं. 1584945एल अब जेसी-352052के), 02 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एसडी) राजेन्द्र कुमार (सं. 1583055वाई अब जेसी-352075एल), 09 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एसडी) पाठक चित्रसेन दशरथ (सं. 1583818के अब जेसी-352076एन), 02 अप्रैल 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) हिमत सिंह राव (सं. 1584148ए अब जेसी-352077डब्ल्यू), 12 अप्रैल 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) सालुंखे मधुकर एकनाथ (सं. 1584324एम अब जेसी-352078वाई), 02 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एसडी) गोपा कुमार आर (सं. 1584946एन अब जेसी-352107एच), 05 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) प्रसन्ना कुमार (सं. 1584947डब्ल्यू अब जेसी-352108एल), 05 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) जगफुल मलिक (सं. 1585490एम अब जेसी-352109एन), 07 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) मलखान सिंह कुशवाह (सं. 6389667एक्स अब जेसी-352110एच), 07 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एसडी) आर गुनासेकरन (सं. 1583476एफ अब जेसी-352126एन), 18 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) अनिल कुमार चौधरी (सं. 1584152एच अब जेसी-352127डब्ल्यू), 18 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) रसाल संदीप अर्जुन (सं. 1585542एक्स अब जेसी-352128वाई), 18 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) अंजनी कुमार (सं. 6932457डब्ल्यू अब जेसी-352129एफ), 28 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) बिमल गौतम (सं. 1582566डब्ल्यू अब जेसी-352130डब्ल्यू), 29 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एसडी) भोर नारायण भिवाजी (सं. 6389503एफ अब जेसी-352137ए), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) अमरीक सिंह (सं. 1582404एल अब जेसी-352138एच), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) कल्याण कुमार रॉय (सं. 6932393डब्ल्यू अब जेसी-352139एल), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) मुरगन पी (सं. 1582873एन अब जेसी-352140ए), 04 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) उमेश कुमार जोशी (सं. 1582894के अब जेसी-352141एच), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) राम दत्त शर्मा (सं. 6933227पी अब जेसी-352142एल), 01 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एसडी) किशनपाल सिंह (सं. 6933228एक्स अब जेसी-352143एन), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) हरबीर सिंह (सं. 6933266एन अब जेसी-352144डब्ल्यू), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) राम नारायण (सं. 1583146एच अब जेसी-352145वाई), 01 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एस के) के रैंक में

हवलदार (एसके) के सेकरन (सं. 15310245पी अब जेसी-352030एल), 29 अगस्त 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

हवलदार (एसकेटी) पट्टन कासिम खान (सं. 1587781एल अब जेसी-352117एम), 14 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (एसकेटी) जी रवी (सं. 1587813एच अब जेसी-352118पी), 19 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

आर पान्डियन  
उप सचिव

थल सेना शाखा

सं. 471, दिनांक 18 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

स्थायी थल सेना

सेना चिकित्सा कोर

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग तकनीशियन)

नायब सूबेदार प्रमोद सिंह रनधर (जेसी-694272एन), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार कमलेश कुमार पाण्डेय (जेसी-694307वाई), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार पूरन चन्द्र जोशी (जेसी-694607ए), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार एवीआर श्रीनागेश (जेसी-694608एच), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार पौल एन पी (जेसी-694609एल), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार चन्द्र मोहन सिंह (जेसी-694610ए), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-694611एच), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-694612एल), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार ओंकार (जेसी-694613एन), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार सोनवाने श्री राम थकुनाथ (जेसी-694614डब्ल्यू), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-694615वाई), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र (जेसी-694616एफ), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार बारे लाल (जेसी-694617के), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार अशोक कुमार मिश्रा (जेसी-694618एम), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-694619पी), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-694620के), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार धूमल कालीदास नर्सिंग (जेसी-694621एम), 14 अगस्त 2009



नायब सूबेदार गोपाल सिंह सामन्ता (जेसी-694623एक्स), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार अवाते मंगलीदास मारूती (जेसी-694624ए), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार ब्रिजेश कुमार मिश्रा (जेसी-694625एच), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार पी चन्द्र सेकरन (जेसी-694626एल), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार भारत भूषण वर्मा (जेसी-694627एन), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार दिनेश पाण्डेय (जेसी-694629वाई), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार नवीन चन्द्र (जेसी-694630एन), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र सिंह (जेसी-694631डब्ल्यू), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार जोशी (जेसी-694632वाई), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-694633एफ), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार मामराज सिंह (जेसी-694634के), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार व्यास जयस अरविन्द भाई (जेसी-694635एम), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार अशोक कुमार वी आर (जेसी-694636पी), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार महेश बक्स सिंह (जेसी-694936डब्ल्यू), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार मनोज कुमार (जेसी-694946ए), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार सतवीर शर्मा (जेसी-694911के), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार ए महम्मदअली (जेसी-694937वाई), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार सुवध सिवनरायण (जेसी-694927पी), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार कुमार एच एस (जेसी-694947एच), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार नारायण सिंह परिहार (जेसी-694895एक्स), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार महेन्द्र प्रसाद मिश्रा (जेसी-694896ए), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र सिंह (जेसी-694928एक्स), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार थेओफिल कुंजर (जेसी-694904एन), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-694988एम), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार एन महेन्द्रन (जेसी-694897एच), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार जाधव हेमन्त कुमार जय सिंह राव (जेसी-694929ए), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-694941एफ), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार कृष्णा (जेसी-694930पी), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-694913पी), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-694912एम), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार रूकुम पाल सिंह (जेसी-694938एफ), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार शिव शंकर बोरा (जेसी-694898एल), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार राकेश कुमार त्रिपाठी (जेसी-694931एक्स), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-694899एन), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-694900एक्स), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार राम किशोर (जेसी-694901ए), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार पुष्पराज सिंह (जेसी-694942के), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार विनय कुमार पाण्डेय (जेसी-694939के), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार श्रीनिवास महापात्रा (जेसी-694905डब्ल्यू), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार जय नारायण राजपूत (जेसी-694948एल), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार बिजू मैथ्यू (जेसी-694902एच), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार राकेश कुमार त्रिपाठी (जेसी-694903एल), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार एन प्लानियन्दी (जेसी-694943एम), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-695499एन), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार अबधेश कुमार गिरी (जेसी-695500एक्स), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार मंडलिक रविन्द्र रावा साहेब (जेसी-695501ए), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार समय सिंह (जेसी-695502एच), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र यादव (जेसी-695503एल), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार दशरथ सिंह नथावत (जेसी-695504एन), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार नारायण राम (जेसी-695505डब्ल्यू), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-695506वाई), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार धाना बालन आर (जेसी-695507एफ), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार के विनोद कुमार (जेसी-695508के), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार मोहन बहादुर थापा (जेसी-695518एन), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार पदमनाभन के वी (जेसी-695510एफ), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार बिनोज जी (जेसी-695511के), 04 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार एस सूरज (जेसी-695512एम), 04 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार राजकुमार (जेसी-695513पी), 09 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार प्रवीन सिंह (जेसी-695509एम), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार नन्दन सिंह (जेसी-695514एम), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार महेश चन्द (जेसी-695515ए), 01 जून 2010

नायब सूबेदार अरून कुमार सिंग (जेसी-695516एच), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार शरद वशिष्ठ (जेसी-695519डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार ओमकार दत्त बेलवाल (जेसी-695517एल), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार चन्दे साधू पुण्डलिक राव (जेसी-695520एल), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार अखिलेश कुमार सिंह (जेसी-695521एन), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-695522डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार संतोष मनुवल (जेसी-695523वाई), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार एन सिता रामनजानेयुलु (जेसी-695524एफ), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-695525के), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार बिभू प्रसाद सामल (जेसी-695526एम), 01 मई 2011

नायब सूबेदार जाधव दादासाहेब अनन्द राव (जेसी-695770एम), 01 मई 2011

नायब सूबेदार जयवीर सिंह (जेसी-695771पी), 01 मई 2011

नायब सूबेदार शेर मोहम्मद (जेसी-695739ए), 01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-695772एक्स), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार सुखबीर सिंह सुहाग (जेसी-695773ए), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार प्रफुल्ल कुमार तिवारी (जेसी-695774एच), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार सत्येन्द्र कुमार तिवारी (जेसी-695775एल), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार सी संतोष (जेसी-695776एन), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार अनिल मनरल (जेसी-695777डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार सुधी कुमार के वी (जेसी-695778वाई), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह भण्डारी (जेसी-695779एफ), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार एम वी करूनागरन (जेसी-695780डब्ल्यू), 01 मई 2012

नायब सूबेदार संजीव कुमार शर्मा (जेसी-695781वाई), 01 जून 2012

#### स्थायी सूबेदार (ड्राईवर एमटी)

नायब सूबेदार नगेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-697554एक्स), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार राम मेहर (जेसी-696147एच), 01 नवम्बर 2011

#### स्थायी नायब सूबेदार (चेफ हास्पिटल)

हवलदार चन्द्र मणि प्रसाद तिवारी (सं. 13965375एच अब जेसी-697747एक्स), 08 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार छोटे लाल शिओसागर (सं. 13965576एफ अब जेसी-697842के), 01 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 13965828एच अब जेसी-698130एन),  
01 जून 2011

(नायब सूबदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार पवन कुमार (सं. 13964934पी अब जेसी-698232के),  
07 अक्टूबर 2011

हवलदार दुर्गा सिंह (सं. 13966313पी अब जेसी-698234पी),  
04 अक्टूबर 2011

हवलदार जनार्दन प्रसाद मिश्रा (सं. 13966647के अब जेसी-  
698235एक्स), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार अम्बिका प्रसाद (सं. 13966754एल अब जेसी-  
698236ए), 05 अक्टूबर 2011

(नायब सूबदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार जीवानन्द झा (सं. 13966785एल अब जेसी-698252एक्स),  
04 नवम्बर 2011

हवलदार जगदीश चन्द्र (सं. 13966798एच अब जेसी-698275वाई),  
16 नवम्बर 2011

हवलदार नीबू लाल (सं. 13966799एल अब जेसी-698251पी),  
08 नवम्बर 2011

हवलदार हरी चरन दास (सं. 13966989एक्स अब जेसी-  
698276एफ), 05 नवम्बर 2011

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 13968994एफ अब जेसी-698355डब्ल्यू),  
02 दिसम्बर 2011

हवलदार दया निधि सिंह (सं. 13969230पी अब जेसी-698273एन),  
11 नवम्बर 2011

(नायब सूबदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार राय सिंह (सं. 13969304वाई अब जेसी-698348ए),  
01 दिसम्बर 2011

(नायब सूबदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार महाबीर प्रसाद (सं. 13969800ए अब जेसी-698370एल),  
09 जनवरी 2012

(नायब सूबदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार पणजी भाउ सेंगल (सं. 13969302एन अब जेसी-  
698416एच), 16 फरवरी 2012

(नायब सूबदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 21 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

### स्थायी नायब सूबदार (ऑपरेशन रूप असिस्टेंट)

हवलदार आजाद सिंह (सं. 13970267एच अब जेसी-697494एन),  
05 मार्च 2010

हवलदार उमेश कुमार तिवारी (सं. 13970297ए अब जेसी-  
697495डब्ल्यू), 04 मार्च 2010

(नायब सूबदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अनिमेश नाथ (सं. 13970579वाई अब जेसी-697499एम),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार राकेश कुमार गुप्ता (सं. 13970486के अब जेसी-  
697507ए), 01 अप्रैल 2010

हवलदार विक्रम सिंह बाजिया (सं. 13970731एफ अब जेसी-  
697530एन), 13 अप्रैल 2010

हवलदार प्रेम नारायण (सं. 13970570के अब जेसी-697531डब्ल्यू),  
08 अप्रैल 2010

हवलदार धीरी सिंह (सं. 13970564डब्ल्यू अब जेसी-697532वाई),  
13 अप्रैल 2010

(नायब सूबदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार राम देव सिंह (सं. 13970674एल अब जेसी-697533एफ),  
01 मई 2010

(नायब सूबदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार करुनेन्द्र सिंह (सं. 13970676डब्ल्यू अब जेसी-  
697575एन), 01 जून 2010

हवलदार अरुन कुमार मुखर्जी (सं. 13970750एम अब जेसी-  
697739वाई), 01 जून 2010

हवलदार बीरअजदर उद्धव दिगम्बर (सं. 13970844के अब  
जेसी-697576डब्ल्यू), 01 जून 2010

हवलदार सुनील कुमार चौधरी (सं. 13971050एल अब जेसी-  
697577वाई), 02 जून 2010

हवलदार सतपाल (सं. 13971071एफ अब जेसी-697578एफ),  
01 जून 2010

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13971714एन अब जेसी-697579के),  
03 जून 2010

(नायब सूबदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार खड़क सिंह बिष्ट (सं. 13971710एक्स अब जेसी-  
697580वाई), 01 जुलाई 2010

हवलदार जय प्रकाश (सं. 13971708ए अब जेसी-697741डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2010

हवलदार विजेन्द्र सिंह (सं. 13971848एम अब जेसी-697666एक्स),  
13 जुलाई 2010

हवलदार बिरादर सोमनाथ काशीनाथ (सं. 13971871ए अब जेसी-  
698065वाई), 15 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार कैलाश चन्द्र (सं. 13971947पी अब जेसी-697692वाई),  
10 अगस्त 2010

हवलदार अजोय कुमार यादव (सं. 13971938एन अब जेसी-  
697667ए), 02 अगस्त 2010

हवलदार उग्रसेन पटेल (सं. 13971996एक्स अब जेसी-697693एफ),  
02 अगस्त 2010

हवलदार निरंजन लाल (सं. 13972028एम अब जेसी-697701पी),  
17 अगस्त 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13972082ए अब जेसी-697702एक्स),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार चन्दन चटर्जी (सं. 13972107एफ अब जेसी-697703ए),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 13972132ए अब जेसी-697704एच),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार कुमुद शर्मा (सं. 13969887एम अब जेसी-697705एल),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार जगत पाल (सं. 13972123वाई अब जेसी-697706एन),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार विक्रमन के एम (सं. 13969616पी अब जेसी-697751ए),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार राम सिंह (सं. 13972114एक्स अब जेसी-697704डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार पाटिल बिमगोन्दा कालगोडा (सं. 13972248डब्ल्यू अब  
जेसी-697708वाई), 01 सितम्बर 2010

हवलदार नलवाडे बलवन्त रघुनाथ (सं. 13972239पी अब जेसी-  
697709एफ), 01 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार पाटिल राजेन्द्र उदाजी (सं. 13972247एन अब जेसी-  
697752एच), 26 अक्टूबर 2010

हवलदार गायकवाड़ मनोहर साहेब राव (सं. 13972218वाई अब  
जेसी-697988एक्स), 30 अक्टूबर 2010

हवलदार कोदाग ध्यानेश्वर दादा (सं. 13972216एन अब जेसी-  
697753एल), 26 अक्टूबर 2010

हवलदार पवार शिवाजी तुकाराम (सं. 13972250एन अब जेसी-  
697809एम), 08 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार परब मोहन परसु राम (सं. 13972359एन अब जेसी-  
697849एन), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार सुरिन्दर सिंह (सं. 13972376एन अब जेसी-697850एच),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार रनबीर सिंह (सं. 13972546एम अब जेसी-697851एल),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार एस वेंकटेशन (सं. 13972640डब्ल्यू अब जेसी-  
697852एन), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार दया नन्द (सं. 13972569एन अब जेसी-697853डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार सुन्दर लाल (सं. 13972572एन अब जेसी-697867डब्ल्यू),  
10 दिसम्बर 2010

हवलदार जगदेव खैरे नीमगाँव (सं. 13972735डब्ल्यू अब जेसी-  
697854वाई), 01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार बिरेंद्र प्रसाद (सं. 13972159एक्स अब जेसी-  
697914एच), 08 जनवरी 2011

हवलदार उदय सिंह चौहान (सं. 13972813एच अब जेसी-  
697891एम), 01 जनवरी 2011

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 13972076एम अब जेसी-697876एक्स),  
01 जनवरी 2011

हवलदार श्री शिव शंकर वर्मा (सं. 13972810पी अब जेसी-  
697918वाई), 01 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार प्रदीप कुमार बेहरा (सं. 13972864डब्ल्यू अब जेसी-  
697923के), 01 फरवरी 2011

हवलदार राम नरेश दुबे (सं. 13972778एल अब जेसी-697924एम),  
01 फरवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार मनोज मंडल (सं. 13972868एम अब जेसी-698012ए),  
18 मार्च 2011

हवलदार शिव पाडा मण्डल (सं. 13972888ए अब जेसी-697975ए),  
01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार प्रेम कुमार सिंह (सं. 13972874ए अब जेसी-698014एल),  
05 अप्रैल 2011

हवलदार मो. नसरुद्दीन (सं. 13972875एच अब  
जेसी-699015एन), 04 अप्रैल 2011

हवलदार मोहम्मद जलीललुर रहमान (सं. 13972937एक्स अब जेसी-  
698016डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2011

हवलदार बिक्रम सिंह रावत (सं. 13972907ए अब जेसी-  
698017वाई), 01 अप्रैल 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार स्तनली एम एम (सं. 13972983एम अब जेसी-  
698062एल), 18 मई 2011

हवलदार संतोष कुमार सिंह (सं. 13973215एक्स अब जेसी-  
698066एफ), 13 मई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार माने गोबिन्द रंगराव (सं. 13973463एन अब जेसी-  
698122पी), 01 जुलाई 2011

हवलदार महेन्द्र प्रताप सिंह राठौर (सं. 13973448वाई अब जेसी-  
698125एच), 01 जुलाई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार मो. अंजीर आलम (सं. 13973617पी अब जेसी-  
698148के), 01 अगस्त 2011

हवलदार जानी उदय बाबू भाई (सं. 13973927ए अब जेसी-  
698149एम), 01 अगस्त 2011

हवलदार राजकुमार सिंह भाटी (सं. 13974135एम अब जेसी-  
698153पी), 01 अगस्त 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

हवलदार बंशी लाल सुथार (सं. 13974282पी अब जेसी-  
698181एफ), 17 अगस्त 2011

हवलदार जी श्रीनिवासुलु (सं. 13974248पी अब जेसी-698319एल),  
29 अगस्त 2011

हवलदार बलवान सिंह (सं. 13974245एफ अब जेसी-698183एम),  
29 अगस्त 2011

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 13972015पी अब जेसी-698184पी),  
29 अगस्त 2011

हवलदार पुष्पिन्दर सिंह (सं. 13974327के अब जेसी-698185एक्स),  
27 अगस्त 2011

हवलदार मसरापू रामचन्द्र नायडू (सं. 13974358के अब जेसी-  
698186ए), 02 सितम्बर 2011

हवलदार एच प्रागलादन (सं. 13974432एम अब जेसी-698187एच),  
03 सितम्बर 2011

हवलदार विरेन्द्र कुमार सिलसवाल (सं. 13974576एच अब जेसी-  
698188एल), 13 अगस्त 2011

हवलदार धीरेन्द्र सिंह रावत (सं. 13974555एम अब जेसी-  
698189एन), 27 अगस्त 2011

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 13974561ए अब जेसी-698190एच),  
29 अगस्त 2011

हवलदार चन्द्र शेखर (सं. 13974575ए अब जेसी-698191एल),  
30 अगस्त 2011

हवलदार सत्येन्द्र सिंह (सं. 13974568के अब जेसी-698192एन),  
29 अगस्त 2011

हवलदार पूरन चन्द्र जोशी (सं. 13974603एफ अब जेसी-  
698193डब्ल्यू), 12 सितम्बर 2011

हवलदार सुशील कुमार (सं. 13974697के अब जेसी-698194वाई),  
02 सितम्बर 2011

हवलदार हरी किशन भूरिया (सं. 13974898एच अब जेसी-  
698195एफ), 10 सितम्बर 2011

हवलदार सुशील कुमार वी (सं. 13975153एफ अब जेसी-  
698196के), 09 सितम्बर 2011

हवलदार भोला नाथ सिंह (सं. 13975121वाई अब जेसी-698197एम),  
25 अगस्त 2011

हवलदार विनोद कुमार पाण्डेय (सं. 13975119एफ अब जेसी-  
698198पी), 02 सितम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 08 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 13975187पी अब जेसी-698384एल),  
03 अक्टूबर 2011

हवलदार रामाचन्द्रकुरूप डी (सं. 13975225ए अब जेसी-  
698217पी), 26 सितम्बर 2011

हवलदार गणेश सिंह (सं. 13975171के अब जेसी-698320ए),  
26 सितम्बर 2011

हवलदार जितेन्द्र कुमार राय (सं. 13975170एफ अब जेसी-  
698218एक्स), 30 सितम्बर 2011

हवलदार बालचन्द्रन नायर वी (सं. 13975247वाई अब जेसी-698219ए), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार सजीमन पी एस (सं. 13975244एल अब जेसी-698220पी), 03 अक्टूबर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार विनोद के ए (सं. 13975165डब्ल्यू अब जेसी-698387वाई), 03 जनवरी 2012

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13975159एच अब जेसी-698336एल), 16 दिसम्बर 2011

हवलदार गोलाम मुर्तजा (सं. 13975180एल अब जेसी-698337एन), 19 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 12 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार धरमवीर सिंह (सं. 13975182डब्ल्यू अब जेसी-698338डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2011

हवलदार सुरजीत साहा (सं. 13975178एन अब जेसी-698339वाई), 20 दिसम्बर 2011

हवलदार भरत तिवारी (सं. 13975168के अब जेसी-698388एफ), 28 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सोलंकी गुलाब सिंह देवाभाई (सं. 13975210एक्स अब जेसी-698392के), 02 जनवरी 2012

हवलदार पटेल घनश्याम भाई चन्दू लाल (सं. 13975216वाई अब जेसी-698393एम), 02 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार चमार नाटू भाई अलखभाई (सं. 13975219एम अब जेसी-698432ए), 07 फरवरी 2012

हवलदार सत्येन्द्र कुमार (सं. 13975296एम अब जेसी-698469एफ), 03 मार्च 2012

हवलदार के सौन्दरा राजन (सं. 13975377एफ अब जेसी-698433एच), 15 फरवरी 2012

हवलदार प्रवीन कुमार शर्मा (सं. 13975341एच अब जेसी-698470डब्ल्यू), 02 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार अन्बू जे (सं. 13975399ए अब जेसी-698474एम), 03 मार्च 2012

हवलदार मोउले राजेन्द्र काशीनाथ (सं. 13975384एक्स अब जेसी-698475पी), 13 मार्च 2012

हवलदार रंजीव सिंह (सं. 13975421ए अब जेसी-698476एक्स), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

हवलदार कौशलेन्द्र सिंह चौहान (सं. 13975457वाई अब जेसी-698513ए), 02 अप्रैल 2012

हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 13975448एक्स अब जेसी-698514एच), 13 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार रविन्द्र सिंह हाडा (सं. 13975509के अब जेसी-698536एफ), 01 मई 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (धार्मिक शिक्षक)

धार्मिक शिक्षक सन्तोष कुमार पाण्डेय (सं. 696374एच अब जेसी-696374एच), 15 नवम्बर 2008

धार्मिक शिक्षक अरून कुमार पाण्डेय (सं. 696376एन अब जेसी-696376एन), 15 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 15 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

धार्मिक शिक्षक जितेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 696973एच अब जेसी-696973एच), 14 नवम्बर 2009

धार्मिक शिक्षक बिन्द्रा वासी तिवारी (सं. 696974एल अब जेसी-696974एल), 14 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

धार्मिक शिक्षक कमलेश कुमार पाठक (सं. 6945013एल अब जेसी-697779ए); 30 जनवरी 2010

धार्मिक शिक्षक सन्दीप कुमार (सं. 697011एल अब जेसी-697011एल), 30 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

धार्मिक शिक्षक बसन्त कुमार (सं. 9424864के अब जेसी-697746पी), 15 मई 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 15 मई 2010 से दी जायेगी)

धार्मिक शिक्षक कृष्णा प्रकाश तिवारी (सं. 15155833एल अब जेसी-698161एन), 19 फरवरी 2011

धार्मिक शिक्षक सुधाकर (सं. 14440116एच अब जेसी-698162डब्ल्यू),  
19 फरवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 19 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (फार्मासिस्ट)

हवलदार श्रीनिवासा राव गुदावल्ली (सं. 13975393वाई अब  
जेसी-697581एफ), 02 जून 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मो. साहदुल्ला (सं. 13975592एम अब जेसी-697961ए),  
09 फरवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार लक्ष्मण प्रसाद कहार (सं. 13980609वाई अब  
जेसी-697521एम), 21 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार दीना बन्धु मण्डल (सं. 13980400एन अब जेसी-697763पी),  
02 अक्टूबर 2010

हवलदार राधे श्याम शर्मा (सं. 13980554ए अब जेसी-697582के),  
01 जून 2010

हवलदार गुना सेकरन डी (सं. 13980543एन अब जेसी-697742वाई),  
02 अगस्त 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार दशरथ मौर्या (सं. 13980899एफ अब जेसी-697677के),  
12 जुलाई 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार प्रवीन सिंह (सं. 13978057एक्स अब जेसी-697748ए),  
04 अगस्त 2010

हवलदार जगत नरायण (सं. 13980636एच अब जेसी-698478एच),  
01 मार्च 2012

हवलदार सुशील कुमार सिंह (सं. 13966685ए अब जेसी-697843एम),  
02 दिसम्बर 2010

हवलदार गोविन्द सिंह चौहान (सं. 13981180एफ अब जेसी-697696पी),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार कारलुस मिन्ज (सं. 13981451एन अब जेसी-698213वाई),  
21 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 13980649ए अब जेसी-697697एक्स),  
02 सितम्बर 2010

हवलदार मनधूप राम खोजा (सं. 13982107पी अब जेसी-697698ए),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार हरीश चन्द्र दुमका (सं. 13982679डब्ल्यू अब  
जेसी-697699एच), 01 सितम्बर 2010

हवलदार एम रामचन्द्रन (सं. 13981728एफ अब जेसी-697700एम),  
01 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सी रामाचन्द्रन (सं. 13976038एन अब जेसी-697885वाई),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार सी रवी कुमार (सं. 13976859एच अब जेसी-697798एल),  
01 नवम्बर 2010

हवलदार जसवीर (सं. 13978054के अब जेसी-697860एम), 01 दिसम्बर  
2010

हवलदार जय नारायण शर्मा (सं. 13981831एम अब जेसी-697799एम),  
08 नवम्बर 2010

हवलदार इन्द्रजीत सिंह (सं. 13981939के अब जेसी-697800के),  
10 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सिवाजी इ (सं. 13981792वाई अब जेसी-697801ए),  
19 नवम्बर 2010

हवलदार कुशल सिंह (सं. 13981954वाई अब जेसी-697750एक्स),  
01 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेश चन्द्र सिंह (सं. 13981662डब्ल्यू अब जेसी-697886एफ),  
03 दिसम्बर 2010

हवलदार सुरजन सिंह चौहान (सं. 13982644ए अब जेसी-697861पी),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार अरून कुमार त्रिपाठी (सं. 13982683वाई अब  
जेसी-697862एक्स), 01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13980972पी अब जेसी-697916एन),  
10 जनवरी 2011

हवलदार एम कुमार (सं. 13981791डब्ल्यू अब जेसी-697917डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2011

हवलदार शिवकान्त त्रिपाठी (सं. 13981357के अब जेसी-697887एम),  
01 जनवरी 2011

हवलदार सी थमराई कानन (सं. 13981729के अब जेसी-697888एम),  
01 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार विनेन्द्रन एम (सं. 13982611पी अब जेसी-697929एल),  
01 फरवरी 2011

हवलदार भक्त राज मौर्या (सं. 13983178एच अब जेसी-697930ए),  
01 फरवरी 2011

हवलदार हरीश लाल (सं. 13983190के अब जेसी-697931एच),  
03 फरवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार ठाकरे अशोक त्रिअम्बाकराव (सं. 13980757के अब  
जेसी-698177वाई), 11 अगस्त 2011

हवलदार दीपक कुमार जोशी (सं. 13981674एल अब  
जेसी-698020वाई), 01 अप्रैल 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार आर सिवा राज (सं. 13981534वाई अब जेसी-698054एम),  
02 मई 2011

हवलदार एन मुथइयन (सं. 13983126एम अब जेसी-698064डब्ल्यू),  
14 मई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार प्रमोद कुमार मिश्रा (सं. 13983175पी अब जेसी-698115वाई),  
01 जून 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार मनोज कुमार दुबे (सं. 13981758वाई अब जेसी-698123एक्स),  
01 जुलाई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार असीस कुमार माजी (सं. 13981153एक्स अब  
जेसी-698182के), 01 सितम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार मुकेश कुमार मुदगल (सं. 13983227ए अब  
जेसी-698298ए), 01 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार बिश्वज्योति बरागोहैन (सं. 13978049वाई अब  
जेसी-698322एल), 29 नवम्बर 2011

हवलदार मारुथैयन के (सं. 13982785पी अब जेसी-698305एल),  
01 नवम्बर 2011

हवलदार कुशनरायण जयसवाल (सं. 13981359पी अब जेसी-698390वाई),  
22 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अरून कुमार पाण्डेय (सं. 13980380एल अब  
जेसी-698399एन), 02 जनवरी 2012

हवलदार जल्के नन्द किशोर नामदेव (सं. 13979889एल अब  
जेसी-698400एक्स), 05 जनवरी 2012

हवलदार पलास कुमार दास (सं. 13981270एच अब जेसी-698401ए),  
10 जनवरी 2012

हवलदार हरीश चन्द्र कन्दपाल (सं. 13983213ए अब  
जेसी-698402एच), 02 जनवरी 2012

हवलदार राम गनेश उपाध्याय (सं. 13983880एन अब  
जेसी-698428एक्स), 20 जनवरी 2012

हवलदार एन सदासिवम (सं. 13984009एन अब जेसी-698429ए),  
25 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार अनूप परमासिवन नायर (सं. 13981250पी अब  
जेसी-698430पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार श्रवण कुमार मिश्रा (सं. 13981814एम अब  
जेसी-698431एक्स), 01 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार नन्दन सिंह (सं. 13983211पी अब जेसी-698479एल),  
01 मार्च 2012

हवलदार देशमुख दत्तात्राय विष्णु (सं. 13983571एल अब  
जेसी-698480ए), 01 जनवरी 2012

हवलदार आर पौल पण्डी (सं. 13984016के अब जेसी-698481एच),  
01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)



## स्थायी नायब सूबेदार (हेल्थ असिस्टेंट)

हवलदार नरेन्द्र सिंह राठौर (सं. 13975271पी अब जेसी-697490एक्स),  
04 मार्च 2010

हवलदार चन्द्र चूड प्रसाद (सं. 13976293ए अब जेसी-697572ए),  
01 जून 2010

हवलदार संजीव कुमार (सं. 13976297डब्ल्यू अब जेसी-697695एम),  
16 अगस्त 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 14 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मोहसीन के के (सं. 13974625ए अब जेसी-697475एच),  
22 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार कमल किशोर (सं. 13978463एक्स अब जेसी-697509एल),  
03 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार लल्ला सिंह (सं. 13964108पी अब जेसी-697676एफ),  
03 जुलाई 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अमरेन्द्र तिवारी (सं. 13969203एल अब जेसी-697744के),  
09 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार एल अन्थोनी सामी (सं. 13972649एल अब जेसी-697754एन),  
01 नवम्बर 2010

हवलदार उदय कुमार एस (सं. 13977867एन अब जेसी-697869एफ),  
18 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अजय कुमार पी (सं. 13977993ए अब जेसी-697802एच),  
18 नवम्बर 2010

हवलदार साजू के पी (सं. 13979896एफ अब जेसी-697755डब्ल्यू),  
01 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार राम अवध सिंह यादव (सं. 13980378एन अब  
जेसी-697881एच), 01 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 13980444एल अब जेसी-697970एफ),  
01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार उपिन्दर जीत सिंह (सं. 13988462पी अब जेसी-698118एम),  
28 मई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 07 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार शिरभाते राजेश बाजीराव जी (सं. 13980469एक्स अब  
जेसी-698119पी), 16 जून 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार छोटे लाल सिंह (सं. 13980534एम अब  
जेसी-698120के), 01 जून 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार जहर लाल दास (सं. 13980540ए अब जेसी-698121एम),  
01 जुलाई 2011

हवलदार ब्रज किशोर सिंह (सं. 13980608डब्ल्यू अब  
जेसी-698127एन), 07 जुलाई 2011

हवलदार प्रताप सिंह जाखड़ (सं. 13980656डब्ल्यू अब  
जेसी-698128डब्ल्यू), 01 जुलाई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अविनाश चन्दर (सं. 13989019एन अब जेसी-698296पी),  
29 अक्टूबर 2011

हवलदार राज कुमार परमार (सं. 13980631के अब  
जेसी-698297एक्स), 11 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द्र त्रिपाठी (सं. 13980640एल अब  
जेसी-698301पी), 05 नवम्बर 2011

हवलदार प्रदीप कुमार उपाध्याय (सं. 13988007एम अब  
जेसी-698302एक्स), 01 नवम्बर 2011

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13980369एम अब जेसी-698303ए),  
03 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अशोकन एम एस (सं. 13980968एम अब  
जेसी-698394पी), 01 जनवरी 2011

हवलदार कामाख्या नारायण सिंह (सं. 13976851डब्ल्यू अब जेसी-698395एक्स), 02 जनवरी 2011

हवलदार शिव प्रसाद बी आर (सं. 13980186डब्ल्यू अब जेसी-698396ए), 01 जनवरी 2011

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 13980679एक्स अब जेसी-698397एच), 03 जनवरी 2011

हवलदार राजा एफ (सं. 13980456ए अब जेसी-698398एल), 01 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार धर्मेन्द्र कुमार कृष्निया (सं. 13980977एन अब जेसी-698422डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

हवलदार किशोर चन्द्र साहू (सं. 13980537ए अब जेसी-698423वाई), 10 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार प्रबोध कुमार हजरा (सं. 13980416अब अब जेसी-698471वाई), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2012)

हवलदार महिपाल सिंह (सं. 13980821डब्ल्यू अब जेसी-698515एल), 01 अप्रैल 2012

हवलदार सतीश कुमार (सं. 13981412पी अब जेसी-698516एन), 01 अप्रैल 2012

हवलदार तपस कुमार दास (सं. 13980617एक्स अब जेसी-698517डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (स्पेशल ट्रीटमेंट असिस्टेंट)

हवलदार शशिकान्त कुमार (सं. 13959532एन अब जेसी-697498के), 01 अप्रैल 2010

हवलदार राकेश पाल सिंह तोमर (सं. 13958914एल अब जेसी-697510ए), 03 अप्रैल 2010

हवलदार रामेश्वर यादव (सं. 13961795एल अब जेसी-697665पी), 01 अप्रैल 2010

हवलदार अदित्य सिंह (सं. 13965043वाई अब जेसी-697534के), 12 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रंजीत सिंह परिहार (सं. 13965073डब्ल्यू अब जेसी-697570पी), 01 जून 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार नवल किशोर सिंह (सं. 13965571एच अब जेसी-697694के), 01 अगस्त 2010

हवलदार राजेश कुमार यादव (सं. 13965542एन अब जेसी-697668एच), 02 अगस्त 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

हवलदार राधा कृष्णन के (सं. 13966880एक्स अब जेसी-697743एफ), 20 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रनवीर (सं. 13967280एफ अब जेसी-697845एक्स), 01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार मुरलीधरन पिल्लई के आर (सं. 13967373डब्ल्यू अब जेसी-697872एफ), 01 जनवरी 2011

हवलदार क्षीरसागर विट्ठल भैरू (सं. 13967499डब्ल्यू अब जेसी-697873के), 01 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार दारा सिंह महारा (सं. 13967645एल अब जेसी-697919एफ), 01 फरवरी 2011

हवलदार मनोज कुमार पाठक (सं. 13967709एल अब जेसी-697920डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

हवलदार वाकरे किशोर भाऊ राव (सं. 13967781एफ अब जेसी-697963एल), 01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार चन्द्र गौड़ा पाटिल (सं. 13968029एक्स अब जेसी-698018एफ), 01 अप्रैल 2011

हवलदार हरी शंकर सिंह (सं. 13968644पी अब जेसी-698215के), 07 अक्टूबर 2011

हवलदार आसू दास स्वामी (सं. 13969007एल अब जेसी-698019के), 01 अप्रैल 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार जालिम सिंह (सं. 13969221एन अब जेसी-698111एच),  
01 जून 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सेन्थिल कुमार डी (सं. 13961983ए अब  
जेसी-698434एल), 09 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (साइक्रेटिक नर्सिंग असिस्टेंट)

हवलदार राजा राम (सं. 13966357एम अब जेसी-697491ए),  
29 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार बरून कुमार सिंह (सं. 13966601एफ अब  
जेसी-697523एक्स), 10 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेश सिंह (सं. 13966609एन अब जेसी-697710डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार मेहन्द्रपाल सिंह गुर्साई (सं. 13967037के अब  
जेसी-697711वाई), 01 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सुरिन्दर कुमार (सं. 13967257एन अब जेसी-697971के),  
01 मार्च 2011

हवलदार सुभाष कुमार शर्मा (सं. 13967563एच अब  
जेसी-697972एम), 01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार एम नाबाल कुमार सिंघा (सं. 13970512ए अब  
जेसी-698323एन), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार पाटिल प्रभाकर शंकर (सं. 13972256पी अब  
जेसी-698324डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार बरदा नन्द गोस्वामी (सं. 13972846एन अब  
जेसी-698504वाई), 10 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार शम्भू मण्डल (सं. 13973294एक्स अब जेसी-698472एफ),  
01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 13973435एफ अब जेसी-698512एक्स),  
02 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट)

हवलदार सूबेदार प्रसाद यादव (सं. 13963649के अब  
जेसी-697889पी), 01 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार प्रभाकर सिंह जादौन (सं. 13964333के अब जेसी-  
697962एच), 01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार राजेश प्रसाद (सं. 13964434एक्स अब जेसी-698124ए),  
28 जून 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार ब्रह्मदेव सिंह (सं. 13965486ए अब जेसी-698304एच),  
08 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार हितेश दास (सं. 13968269पी अब जेसी-698403एल),  
01 जनवरी 2012

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 13971156एक्स अब जेसी-698404एन),  
02 जनवरी 2012

हवलदार बिरेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 13976041एन अब  
जेसी-698376एम), 02 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार धनपत सिंह (सं. 13976143के अब जेसी-698424एफ),  
01 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार आनन्दी कुमार दुबे (सं. 13976294एच अब  
जेसी-698473के), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

हवलदार जया कुमार आर (सं. 13976612एफ अब जेसी-698510एम), 02 अप्रैल 2012

हवलदार समय पाल (सं. 13976714एक्स अब जेसी-698511पी), 01 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (फिजियोथेरापी असिस्टेन्ट)

हवलदार डी जनार थनन (सं. 13966365एल अब जेसी-697574एल), 01 जुलाई 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अनिल कुमार ठाकुर (सं. 13965169वाई अब जेसी-697758के), 01 नवम्बर 2010

हवलदार सुरेन्द्र कुमार साहू (सं. 13967171पी अब जेसी-697913ए), 11 जनवरी 2011

हवलदार बाबुल कौवर (सं. 13967337एल अब जेसी-697874एम), 27 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार गोविन्दन कुटी सी एम (सं. 13966422एफ अब जेसी-697846ए), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार सतबीर (सं. 13967624पी अब जेसी-697847एच), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार प्रेम सिंह कथायत (सं. 13967647डब्ल्यू अब जेसी-697863ए), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार दुन्ना कृष्णा राव (सं. 13967824एल अब जेसी-697875पी), 16 दिसम्बर 2010

हवलदार रामशंकर चौधरी (सं. 13970241एन अब जेसी-697848एल), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार विनोद चन्द्र भट्ट (सं. 13971042एम अब जेसी-697866एन), 09 दिसम्बर 2010

हवलदार ससे बालू रंगनाथ (सं. 13971733वाई अब जेसी-697855एफ), 01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जमाल अख्तर (सं. 13972141एफ अब जेसी-697877ए), 01 जनवरी 2011

हवलदार टाटे संजय कुमार विठ्ठल (सं. 13972240के अब जेसी-698325वाई), 02 दिसम्बर 2011

हवलदार विवेक कुमार (सं. 13972596एक्स अब जेसी-697878एच), 01 जनवरी 2011

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13974225एन अब जेसी-697879एल), 01 जनवरी 2011

हवलदार सरक दादा साहेब धोन्दीराम (सं. 13974503डब्ल्यू अब जेसी-697880ए), 01 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा (सं. 13975087के अब जेसी-697932एल), 01 फरवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार दया राम (सं. 13975104वाई अब जेसी-697964एन), 01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (डेंटल टेक्नीशियन)

हवलदार ए कृष्णामूर्ति (सं. 13984018पी अब जेसी-697796ए), 23 नवम्बर 2010

हवलदार मन लिम्बू (सं. 13985797पी अब जेसी-697555ए), 15 मई 2010

हवलदार दीपक सिंह (सं. 13985914पी अब जेसी-697477एन), 26 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार लक्ष्मीकान्त श्रीवास्तव (सं. 13988003के अब जेसी-697492एच), 08 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार किशोर कुमार शुक्ला (सं. 13987488एल अब जेसी-697573एच), 08 जून 2010

हवलदार वी रमेश (सं. 13985167पी अब जेसी-697669एल), 05 जुलाई 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सी एफ बाबू (सं. 13987359एल अब जेसी-698267ए), 21 अक्टूबर 2011

हवलदार केशरी सिंह (सं. 13988546डब्ल्यू अब जेसी-698224एल), 12 अक्टूबर 2011

हवलदार सुशील नाथ उपाध्याय (सं. 13989506एफ अब जेसी-698326एफ), 11 नवम्बर 2011

हवलदार सूर्य बहादुर थापा (सं. 13989330एफ अब जेसी-698327के), 25 नवम्बर 2011

हवलदार जयकुमार ओ (सं. 13994210एम अब जेसी-698268एच), 25 अक्टूबर 2011

हवलदार मंजीत सिंह (सं. 13995465वाई अब जेसी-698532वाई), 10 मई 2011

हवलदार राजेश आर (सं. 13996334ए अब जेसी-698225एन), 11 अक्टूबर 2011

हवलदार एम आर बैरस सेठी (सं. 13996837एल अब जेसी-698269एल), 19 अक्टूबर 2011

हवलदार प्रसान्त कुमार साहू (सं. 13996901एक्स अब जेसी-698226डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2011

हवलदार तजुद्दीन अहमद (सं. 13995772डब्ल्यू अब जेसी-698270ए), 21 अक्टूबर 2011

हवलदार शाही राम प्रताप हरेन्द्र नाथ (सं. 13996938वाई अब जेसी-698271एच), 20 अक्टूबर 2011

हवलदार रन विजय सिंह (सं. 13998514एफ अब जेसी-698272एल), 01 नवम्बर 2011

हवलदार बसवा राजू के (सं. 13998880एल अब जेसी-698328एम), 21 नवम्बर 2011

हवलदार परशुराम दिवानन्द (सं. 13998873पी अब जेसी-698329पी), 19 दिसम्बर 2011

हवलदार गिरीश बाबू के (सं. 13998978वाई अब जेसी-698278एम), 17 अक्टूबर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार गोपाल चन्द्र मण्डल (सं. 13998959एन अब जेसी-698362एम), 05 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार मुकेश कुमार सिंह (सं. 13999078एफ अब जेसी-698330के), 28 नवम्बर 2011

हवलदार बिजू कुमार एस (सं. 13999494एल अब जेसी-698300एम), 09 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सन्तोष कुमार सिंह (सं. 13999546डब्ल्यू अब जेसी-698391एफ), 01 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार आर सरवन्न (सं. 13999726वाई अब जेसी-698508पी), 01 अप्रैल 2012

हवलदार सनप कैलास विथोबा (सं. 13999875एम अब जेसी-698509एक्स), 01 अप्रैल 2012

हवलदार अनन्द कुमार एम (सं. 13998572एम अब जेसी-698521वाई), 16 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (डेन्टल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट)

हवलदार गजे सिंह (सं. 13966616के अब जेसी-697489एच), 05 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश एम वी (सं. 13967133वाई अब जेसी-697528डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2010

हवलदार पवार विठ्ठल यशवन्त (सं. 13967506एफ अब जेसी-697529वाई), 27 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जी रेडिप्पा (सं. 13968811ए अब जेसी-697571एक्स), 01 जून 2010

हवलदार रमेश प्रसाद गुप्ता (सं. 13969199एन अब जेसी-697671एच), 23 जून 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार दरब सिंह (सं. 13969580एफ अब जेसी-697716एक्स), 01 सितम्बर 2010

हवलदार जगन नाथ हाती (सं. 13970729के अब जेसी-697717ए), 01 सितम्बर 2010

हवलदार नवीन सिंह नेगी (सं. 13971010के अब जेसी-698053के), 14 मार्च 2011

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 13971048एन अब जेसी-697718एच), 01 सितम्बर 2010

हवलदार अरुन कुमार शर्मा (सं. 13971390एन अब जेसी-697760एफ), 07 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश सिंह (सं. 13971623के अब जेसी-697761के),  
12 अक्तूबर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13971761एल अब जेसी-697865एल),  
11 नवम्बर 2010

हवलदार भतने अन्त राम धोन्धी राम (सं. 13971865एम अब  
जेसी-697762एम), 29 अक्तूबर 2010

हवलदार धवाते सुनील गोपीनाथ (सं. 13971892डब्ल्यू अब  
जेसी-697765ए), 24 अक्तूबर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार हेमलाल साहू (सं. 13971975एफ अब जेसी-697808के),  
15 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार विश्व नाथ मिश्रा (सं. 139722119डब्ल्यू अब  
जेसी-697870डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 2010

हवलदार कोलेकर रघु सिधप्पा (सं. 13972141एम अब  
जेसी-697871वाई), 29 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार विरेन्द्र कुमार मिश्रा (सं. 13975310एच अब  
जेसी-697927ए), 21 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार वेनू गोपाल पी एस (सं. 13965705डब्ल्यू अब  
जेसी-697959एच), 07 फरवरी 2011

हवलदार ब्रह्मदीन पाण्डेय (सं. 13972809ए अब  
जेसी-697960एक्स), 03 फरवरी 2011

हवलदार रविन्द्र प्रसाद जोशी (सं. 13975365एम अब  
जेसी-698013एच), 01 फरवरी 2011

हवलदार देवेन्द्र सिंह बोरा (सं. 13984557एल अब  
जेसी-697928एच), 07 फरवरी 2011

हवलदार रामदयाल पाण्डेय (सं. 13975528पी अब  
जेसी-697986एम), 01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार दीपेश नायर बी एस (सं. 13984574एल अब  
जेसी-697973पी), 01 मार्च 2011

हवलदार रमेश कुमार सिंह (सं. 13984646के अब  
जेसी-697974एक्स), 01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार विनोद प्रसाद चौबे (सं. 13985075एच अब  
जेसी-698290एन), 22 अक्तूबर 2011

हवलदार एन सिवाकुरूनाथन (सं. 13984160वाई अब  
जेसी-698230वाई), 14 अक्तूबर 2011

हवलदार सय्यद अनिमुद्दीन कमरुद्दीन (सं. 13984132एम अब  
जेसी-698291डब्ल्यू), 29 अक्तूबर 2011

हवलदार कलास्कर अजय अमरूत राव (सं. 13984347एल अब  
जेसी-698292वाई), 31 अक्तूबर 2011

हवलदार प्रवीर कुमार दास (सं. 13984425एक्स अब  
जेसी-698293एफ), 09 नवम्बर 2010

हवलदार सुनील कुमार (सं. 13985143एल अब जेसी-698294के),  
25 अक्तूबर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (डेन्टल हाईजीनिस्ट)

हवलदार जयप्रकाश पी (सं. 13964681एल अब जेसी-697522पी),  
06 मई 2010

हवलदार ललित कुमार सिंह (सं. 13964665एन अब  
जेसी-697476एल), 22 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार शिन्दे दीपक कुमार शरद (सं. 13964917पी अब  
जेसी-697524ए), 08 अप्रैल 2010

हवलदार विजेन्द्र सिंह मुण्डवरिया (सं. 13965035ए अब  
जेसी-697525एच), 02 अप्रैल 2010

हवलदार महेश चन्द्र (सं. 13966627डब्ल्यू अब  
जेसी-697496वाई), 01 अप्रैल 2010

हवलदार अरुन कुमार सिंह (सं. 13966664के अब  
जेसी-697538डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

हवलदार गुप्तेश्वर नाथ चतुर्वेदी (सं. 13966721ए अब  
जेसी-698058एच), 02 मई 2010

हवलदार धनवीर सिंह (सं. 13967038एम अब जेसी-697508एच),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार राकेश सिंह भदोरिया (सं. 13968023डब्ल्यू अब जेसी-697556एच), 20 मई 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार लखी बोराह (सं. 13968287एक्स अब जेसी-697585एक्स), 07 जून 2010

हवलदार अनन्द सिंह बिष्ट (सं. 13968623वाई अब जेसी-697740एन), 14 जून 2010

हवलदार सुनील फकोन (सं. 13968640वाई अब जेसी-697586ए), 02 जुलाई 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार उदय राज सिंह (सं. 13969363एल अब जेसी-697756वाई), 01 नवम्बर 2010

हवलदार के थिरूगनानसम बन्दम (सं. 13972920के अब जेसी-697757एफ), 01 नवम्बर 2010

हवलदार मोहम्मद इस्माइल ए (सं. 13972922पी अब जेसी-697803एल), 19 नवम्बर 2010

हवलदार एस शेन पाहा मूर्ति (सं. 13972921एम अब जेसी-697804एन), 01 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार उमेश पटेल (सं. 13972897एफ अब जेसी-697844पी), 01 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सुनील कुमार सिंह (सं. 13974227वाई अब जेसी-698059एल), 02 मई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार दब्लल सिंह भण्डारी (सं. 13974557एक्स अब जेसी-698180वाई), 01 जून 2011

हवलदार सुब्रता देब (सं. 13976867एफ अब जेसी-698116एफ), 01 जून 2011

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 13975099वाई अब जेसी-698117के), 02 जून 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार कोशल कुमार (सं. 13980449के अब जेसी-698147एफ), 01 अगस्त 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

हवलदार शीबू जोसेफ (सं. 13977984वाई अब जेसी-698227वाई), 11 अक्टूबर 2011

हवलदार ब्रज मोहन पाण्डेय (सं. 13980447वाई अब जेसी-698279पी), 31 अक्टूबर 2011

हवलदार वी लक्ष्मण मूर्ति (सं. 13989926एन अब जेसी-698280के), 11 अक्टूबर 2011

हवलदार मिथिलेश कुमार सिंह (सं. 13980558डब्ल्यू अब जेसी-698228एफ), 14 अक्टूबर 2011

हवलदार हरीश चन्द्र पटेल (सं. 13980579एम अब जेसी-698281एम), 31 अक्टूबर 2011

हवलदार रमेश एस (सं. 13980606एल अब जेसी-698282पी), 20 अक्टूबर 2011

हवलदार योगेश चन्द्र (सं. 13981371डब्ल्यू अब जेसी-698283एक्स), 11 नवम्बर 2011

हवलदार सुधीर कुमार सिंह (सं. 13980448एफ अब जेसी-698229के), 17 अक्टूबर 2011

हवलदार प्रमोद कुमार मिश्रा (सं. 13981185ए अब जेसी-698284ए), 29 अक्टूबर 2011

हवलदार असोहन टी (सं. 13980392ए अब जेसी-698285एच), 20 अक्टूबर 2011

हवलदार बाला सुब्रमनियन एम (सं. 13986431डब्ल्यू अब जेसी-698286एल), 09 नवम्बर 2011

हवलदार प्रेम बल्लभ (सं. 13981661एन अब जेसी-698287एन), 11 नवम्बर 2011

हवलदार अश्वनी कुमार सिंह (सं. 13981676डब्ल्यू अब जेसी-698288डब्ल्यू), 29 अक्टूबर 2011

हवलदार रहमान खान (सं. 13981804एच अब जेसी-698289वाई), 20 अक्टूबर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राजेश कुमार पाण्डेय (सं. 13981817ए अब जेसी-698332पी), 30 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार चन्द्र बाबू वी (सं. 13982222पी अब जेसी-698333एक्स), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार महेन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 13982286ए अब जेसी-698386डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2011

हवलदार उदय सिंह (सं. 13981410के अब जेसी-698421एन), 28 जनवरी 2012

हवलदार अमर जीत (सं. 13982688एक्स अब जेसी-698334ए), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार वेंकटेश के (सं. 13981839वाई अब जेसी-698335एच), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार उमेश चन्द्र तिवारी (सं. 13983218वाई अब जेसी-698342वाई), 13 दिसम्बर 2011

हवलदार श्याम लाल (सं. 13983179एल अब जेसी-698343एफ), 03 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार खुर्शीद अहमद (सं. 13983177ए अब जेसी-698467डब्ल्यू), 14 फरवरी 2012

हवलदार सरफराज (सं. 13983186एफ अब जेसी-698468वाई), 24 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 21 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सेबस्टियन वर्धीस ई (सं. 13983578पी अब जेसी-698427पी), 18 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार साजी सी के (सं. 13983552ए अब जेसी-698505एफ), 26 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (लैबोरेट्री असिस्टेंट)

हवलदार जम्बरे अशोक नामदेव (सं. 13965725के अब जेसी-697512एल), 01 अप्रैल 2010

हवलदार कृष्ण लाल (सं. 13965556एन अब जेसी-697511एच), 31 मार्च 2010

हवलदार मुथुरामालिंगम (सं. 13967080एल अब जेसी-697670ए), 02 अगस्त 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बिरेन्द्र प्रसाद (सं. 13967492एम अब जेसी-697749एच), 12 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार पाने सिंह (सं. 13967740एक्स अब जेसी-697797एच), 06 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार जंगवे अशोक शिव मूर्ति (सं. 13968194एच अब जेसी-697764एक्स), 25 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 13968475वाई अब जेसी-697925पी), 01 फरवरी 2011

हवलदार कोडे सुब्बारायडू (सं. 13968792ए अब जेसी-697926एक्स), 01 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार मुनि कुमार बाबू पी वी (सं. 13966659वाई अब जेसी-697976एच), 01 मार्च 2011

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 13969948वाई अब जेसी-697977एल), 01 मार्च 2011

हवलदार गंगाधर साहू (सं. 13970102के अब जेसी-697978एन), 01 मार्च 2011

हवलदार वी देबराज (सं. 13970097के अब जेसी-697979डब्ल्यू), 01 मार्च 2011

हवलदार धीरेन कुमार पानी (सं. 13970100वाई अब जेसी-698265पी), 05 नवम्बर 2011

हवलदार एम सिवासंकरन (सं. 13970147के अब जेसी-697980एल), 04 मार्च 2011

हवलदार राम मोहन के (सं. 13970215एम अब जेसी-697881एन), 07 मार्च 2011

हवलदार अनिल कुमार (सं. 13970419वाई अब जेसी-697982डब्ल्यू), 01 मार्च 2011

हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 13971158एच अब जेसी-697983वाई), 01 मार्च 2011

हवलदार रंजन कुमार जेना (सं. 13971215वाई अब जेसी-697987पी), 03 मार्च 2011

हवलदार राम मनोहर यादव (सं. 13971209एल अब जेसी-697984एफ), 01 मार्च 2011



हवलदार हरी शंकर बिष्ट (सं. 13971141पी अब जेसी-697985के),  
01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार पवार जितेन्द्र चिन्तामणि (सं. 13971879एम अब  
जेसी-698028एल), 01 अप्रैल 2011

हवलदार सूर्यवंशी श्रीहारी गनपत राव (सं. 13971866पी अब  
जेसी-698029एच), 01 अप्रैल 2011

हवलदार उपेन्द्र प्रसाद (सं. 13972072डब्ल्यू अब जेसी-698030एच),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 13972090वाई अब जेसी-698031एल),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार प्रवीन कुमार मल (सं. 13972094पी अब जेसी-698216एम),  
05 अक्टूबर 2011

हवलदार सतीश कुमार (सं. 13972109एम अब जेसी-698056एक्स),  
13 अप्रैल 2011

हवलदार प्रमोद कुमार चौधरी (सं. 13972129ए अब  
जेसी-698057ए), 11 अप्रैल 2011

हवलदार सोमेश्वर घोष चौधरी (सं. 13972129ए अब  
जेसी-698057ए), 11 अप्रैल 2011

हवलदार सन्तोष कुमार पाल (सं. 13972165एल अब  
जेसी-698108एच), 07 अप्रैल 2011

हवलदार जीवन सिंह खाती (सं. 13972175पी अब  
जेसी-698032एन), 01 अप्रैल 2011

हवलदार भोजी महादेव मलप्पा (सं. 13972253एफ अब  
जेसी-698033डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

हवलदार मुस्ताक अहमद मीर (सं. 13972521ए अब  
जेसी-698034वाई), 07 अप्रैल 2011

हवलदार विल्वानाथन (सं. 13972652एल अब जेसी-698011एक्स),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार एम एस अरुमुगम (सं. 13972664ए अब  
जेसी-698035एफ), 01 अप्रैल 2011

हवलदार शिरके अरुन नहनू (सं. 13972740एफ अब  
जेसी-698036के), 01 अप्रैल 2011

हवलदार पिताम्बर राउत (सं. 13972882वाई अब जेसी-698037एम),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार किशोर महन्ता (सं. 13972896वाई अब जेसी-698038पी),  
05 अप्रैल 2011

हवलदार भरत भूषण (सं. 13972847डब्ल्यू अब जेसी-698039एक्स),  
07 अप्रैल 2011

हवलदार जंगवे गनपति शिवमूर्ति (सं. 13973085ए अब  
जेसी-698040एम), 01 अप्रैल 2011

हवलदार मगडे झुन्जर रेवंसिधा (सं. 13973445एल अब  
जेसी-698063एन), 11 मई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार राम सहाय सिंह (सं. 13973473एक्स अब  
जेसी-698109एम), 01 जुलाई 2011

हवलदार पुष्प राज (सं. 13973491ए अब जेसी-698110ए),  
02 जुलाई 2011

((नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार शिवहरे (सं. 13974398एल अब जेसी-  
698150एफ), 01 अगस्त 2011

हवलदार युद्धबीर सिंह (सं. 13974577एल अब जेसी-698151के),  
01 अगस्त 2011

हवलदार भूपाल सिंह (सं. 13972111के अब जेसी-698199एक्स),  
06 सितम्बर 2011

हवलदार गजेन्द्र सिंह (सं. 13975144ए अब जेसी-698200एफ),  
16 सितम्बर 2011

हवलदार मोहम्मद जबीर (सं. 13975163एल अब जेसी-  
698221एक्स), 13 अक्टूबर 2011

हवलदार देवी सिंह (सं. 13975300वाई अब जेसी-698533एन),  
24 अप्रैल 2011

हवलदार साजी पी (सं. 13973426ए अब जेसी-698222ए),  
05 अक्टूबर 2011

हवलदार अरबिन्द कुमार शुक्ला (सं. 13975321पी अब  
जेसी-698223एच), 03 अक्टूबर 2011

हवलदार दानबीर सिंह (सं. 13975364के अब जेसी-698201के),  
08 सितम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

हवलदार लल्ला सिंह (सं. 13975344डब्ल्यू अब जेसी-  
698307डब्ल्यू), 15 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र कुमार पाण्डेय (सं. 13975366पी अब जेसी-  
698321एच), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार सुरेन्द्र सिंह रावत (सं. 13975363एफ अब जेसी-698385एच), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार पूरन चन्द्र पाठक (सं. 13975689एक्स अब जेसी-698331एम), 03 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार हेम चन्द्र (सं. 13975694एच अब जेसी-698425के), 01 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार प्रताप कुमार पनदब (सं. 13975762एल अब जेसी-698477ए), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

अजय सक्सेना  
अवर सचिव

#### रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 472, दिनांक 19 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

निम्नलिखित व्यक्ति उनके नाम के सामने दी गई तारीख से डीआरडीओ में 9,300--34,800/- रु. (पीबी-2) के वेतन बैंड और 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन में प्रशा. अधिकारी, समूह ख (राजपत्रित) होंगे।

एलेक्जेंडर वी टी, एलआरडीई, बैंगलोर, 28 मई 2012

राजेन्द्रन एच, एलआरडीई, बैंगलोर, 28 मई 2012

गोपालकृष्णन वी, एलआरडीई, बैंगलोर, 28 मई 2012

मिनाक्षी डी, एलआरडीई, बैंगलोर, 28 मई 2012

वी तांडवन, एलआरडीई, बैंगलोर, 14 जून 2012

एवनेजर पुनय्या डी, एलआरडीई, बैंगलोर, 14 जून 2012

पी एम स्टेला, डीएमआरएल, हैदराबाद, 31 मई 2012

एच प्रसन्ना, डीएमआरएल, हैदराबाद, 31 मई 2012

एम अरूणा, डीएमआरएल, हैदराबाद, 31 मई 2012

यू वी सुब्रमन्या शर्मा, डीएमआरएल, हैदराबाद, 31 मई 2012

मारिओ मारिया दास, डीएमआरएल, हैदराबाद, 14 जून 2012

पी शिव राज, डीएमआरएल, हैदराबाद, 25 जून 2012

बी सी वेंकटेश, जीटीआरई, बैंगलोर, 21 जून 2012

एच जी नागराज, जीटीआरई, बैंगलोर, 28 जून 2012

इदा लोबो, एचईएमआरएल, पुणे, 20 जून 2012

गीता कृष्णस्वामी, एचईएमआरएल, पुणे, 20 जून 2012

सी एस टेलीकोन, एचईएमआरएल, पुणे, 20 जून 2012

जे आर काम्बले, एचईएमआरएल, पुणे, 20 जून 2012

एस ए जाधवराव, एचईएमआरएल, पुणे, 25 जून 2012

पी बी पवार, एचईएमआरएल, पुणे, 27 जून 2012

दयाराम सेजू, डीएल, जोधपुर, 28 मई 2012

खीयाराम, डीएल, जोधपुर, 28 मई 2012

एस डी पराटे, टीबीआरएल, चंडीगढ़, 11 जून 2012

पी कुप्पुस्वामी, डेबेल, बैंगलोर, 08 जून 2012

के गीता गोपीनाथन, जीटीआरई, बैंगलोर, 06 जून 2012

पी दामोदर रेड्डी, डीएलआरएल, हैदराबाद, 28 मई 2012

जी मधुसूदन रेड्डी, डीएलआरएल, हैदराबाद, 29 जून 2012

मृदुला शशि, जीटीआरई, बैंगलोर, 06 जून 2012

आर कोतेनाची, जीटीआरई, बैंगलोर, 06 जून 2012

एल सौभाग्य, जीटीआरई, बैंगलोर, 06 जून 2012

जीएसआर मूर्ति, एसएसएल, हैदराबाद, 30 मई 2012

एस साई कुमार, एसएसएल, हैदराबाद, 30 मई 2012

वी चन्द्रशेखर, एसएसएल, हैदराबाद, 30 मई 2012

जगदीश, एसएसएल, हैदराबाद, 30 मई 2012

रजिया सुल्तान, एसएसएल, हैदराबाद, 31 मई 2012

पीएसके प्रसाद, एसएसएल, हैदराबाद, 06 जून 2012

ज्योति सिंह, एसएसएल, हैदराबाद, 14 जून 2012

टीआर चितरंजन, एनपीओएल, कोच्चि, 14 मार्च 2012

राजसेगरन, जीटीआरई, बैंगलोर, 13 जून 2012

वी पी सिंह  
उप निदेशक (कार्मिक)

#### स्थल सेना शाखा

सं. 473, दिनांक 19 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मई 2012 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-35520) कर्नल कुलदीप सिंह चौधरी, आईएनएफ

(आईसी-35606) कर्नल ज्ञानेन्द्र कुमार पाण्डेय, आर्टी

(आईसी-35921) कर्नल परदीप कुमार डोगरा, एएडी  
 (आईसी-35977) कर्नल (टीएस) देवेन्द्र कुमार रावल, आईएनएफ  
 (आईसी-37744) कर्नल (टीएस) राजीन्द्र सिंह ढिल्लन, एओसी  
 (आईसी-37873) कर्नल (टीएस) अजीत रामा राणे, इंजीनियर्स  
 (आईसी-37933) कर्नल (टीएस) गुरब्रिन्दर सिंह चीमा, ईएमई  
 (आईसी-37940) कर्नल (टीएस) एस रमन, आईएनएफ  
 (आईसी-37946) कर्नल (टीएस) जोध सिंह ढिल्लन, आईएनएफ  
 (आईसी-37994) कर्नल (टीएस) मनजीत सिंह, एसी  
 (आईसी-38036) कर्नल (टीएस) अईलीयाथ विजय कुमार, आर्टी  
 (आईसी-38068) ले कर्नल शैलेन्द्र कुमार अत्री, आर्टी  
 (आईसी-38084) कर्नल (टीएस) प्रदीप श्रीवास्तव, आर्टी  
 (आईसी-38146) कर्नल (टीएस) भूप नारायण साह, आर्टी  
 (आईसी-38320) कर्नल (टीएस) अशोक परमार, आर्टी  
 (आईसी-38327) कर्नल (टीएस) विजयकुमार गोपालराव जगदाले, आर्टी  
 (आईसी-38404) कर्नल (टीएस) हरेस लिम्बाचिया, आईएनएफ  
 (आईसी-38690) कर्नल विमल कुमार मोहला, आईएनएफ  
 (आईसी-38769) कर्नल (टीएस) कुलवरन सिंह, आईएनएफ  
 (आईसी-38826) कर्नल गिरीश बाबू आर, एएडी  
 (आईसी-38969) कर्नल (टीएस) विजय कुमार पंत, एएससी  
 (आईसी-39043) कर्नल भूपेन्द्र कुमार छिम्वाल, ईएमई  
 (आईसी-39193) कर्नल (टीएस) नंदा वल्लभ, आईएनएफ  
 (आईसी-39394) कर्नल (टीएस) मनोज चतुर्वेदी, आईएनएफ  
 (आईसी-39415) कर्नल नादिपीरेडीगरी प्रसाद रेड्डी, आईसी

(आईसी-39737) कर्नल (टीएस) रूपीन्द्र मल, एसी  
 (आईसी-39839) कर्नल (टीएस) अशोक कुमार मोहपात्रा, आईसी  
 (आईसी-39852) कर्नल (टीएस) इन्दर मोहन, आईसी  
 (आईसी-41890) कर्नल चन्द्र मोहनन आर, आर्टी  
 (आईसी-41980) कर्नल (टीएस) के एन राधाकृष्णन, इंजीनियर्स  
 (आईसी-42342) कर्नल (टीएस) दलबीर सिंह, मेक आईएनएफ  
 (आईसी-42450) कर्नल वर्गीज एम पी, आर्टी  
 (आईसी-42477) कर्नल (टीएस) रेजी कुरियन, एएडी  
 (आईसी-42519) कर्नल (टीएस) हिमांशु रत्ना, आर्टी  
 (आईसी-42593) कर्नल (टीएस) मदन लाल शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-42644) कर्नल (टीएस) घीसा राम यादव, आईएनएफ  
 (आईसी-42650) कर्नल (टीएस) प्रफुल्ल कुमार, ईएमई  
 (आईसी-42850) कर्नल (टीएस) नरेन्द्र सिंह, आर्टी  
 (आईसी-42884) कर्नल (टीएस) ए डी तेनसिंह रेफस नानसीर, सिग्नल्स  
 (आईसी-42985) कर्नल (टीएस) हरीश चन्द्र सिंह, एएससी  
 (आईसी-48187) ले कर्नल वी जयप्रकाश, आर्टी  
 (आईसी-48376) ले कर्नल मनजीत सिंह, एएससी  
 (एसएल-03439) कर्नल (टीएस) भारत भूषण, आईसी  
 (एसएल-03560) ले कर्नल सतीश चन्द्रा, आरओ  
 (एसएल-03989) ले कर्नल जसविंदर सिंह, आरओ  
 (एसएल-04003) ले कर्नल जगदीश सिंह गिल, ईएमई

जयन्त चक्रवर्ती

उप निदेशक

एमएस-7ए

एमएस सेवा निवृत्ति

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th November 2012

## ARMY BRANCH

No. 468, dated 17th October 2012—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against their names :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

Deepak Patil (MR-07996A), AMC, 16 Feb 2011

Narayane Vijaya Pralhad (MR-08686F), AMC, 17 Feb 2012

Saurav Ghose (MR-07415X), AMC, 23 Feb 2012

Vikas Dhawan (MR-08106F), AMC, 14 Mar 2012

Brijesh Kanti Biswas (MR-08287X), AMC, 15 Mar 2012

N Nagaraja (MR-08255P), AMC, 15 Mar 2012

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Changamayum Premchand Singh (MR-08008F) (75731), AMC, 10 Jan 2012

Telkatwar Mohan Ramrao (MR-08404X) (75746), AMC, 03 Mar 2012

Reetu Agarwal (MR-09107W) (75845), AMC, 29 Mar 2012

Y T Rao (MR-07283P) (75688), AMC, 05 Feb 2011

Capt to be Maj

Ashutosh Gupta (MR-09302N), AMC, 06 Feb 2012

Somali Pattanayak (MR-09234L), AMC, 06 Feb 2012

Saurabh Sharma (MR-09268Y), AMC, 06 Feb 2012

Ajay Bajpai (MR-08584L), AMC, 06 Feb 2012

Bhupesh Saini (MR-08577P), AMC, 06 Feb 2012

Rajendra Kumar Tarakeshwar Tiwari (MR-09310M), AMC, 25 Oct 2011

Anil Kumar Abbot (MR-08543F), AMC, 06 Feb 2012

Ajit Singh (MR-08563P), AMC, 06 Feb 2012

Vipin Sukumaran (MR-09262X), AMC, 06 Feb 2012

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Priyadarshree Patra (MR-09059F) (75932Y), AMC, 31 Aug 2011

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 469, dated 17 Oct 2012—The President is pleased to make the following promotion :—

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

To be Capt

Lt Krishna Bhattacharyya TA(N)-1103, MNS(TA), 28 Oct 2008

BRIJ KUMAR  
Dy Secy

No. 470, dated 18 Oct 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## CORPS OF ENGINEERS

## MADRAS ENGINEER GROUP

To be Subs Sub Maj Clks (SD/IM)

Rank, Trade, Name, JC No., Date of Subs Promotion & Promotion Order No.

Sub/Clk(SD) A Nagarajan (JC-307585A), 15 Mar 2012, J/04/CA2(C), 03 Dec 2011

Sub/Clk(SD) Annathurai R (JC-307796H), 04 Jan 2012, J/48/CA2(C), 22 Oct 2011

Sub/Clk(SD) Prabhakaran U M (JC-307813X), 02 Jan 2012, J/48/CA2(C), 22 Oct 2011

Sub/Clk(SD) Devendra Prasad (JC-307837F), 10 Jan 2012, J/03/CA2(C), 29 Nov 2011

Sub/Clk(SD) Sudhir Babu M V (JC-307839M), 03 Feb 2012, J/03/CA2(C), 29 Nov 2011

Sub/Clk(SD) Rajinder Prakash (JC-305856N), 03 Feb 2012, J/05/CA2(C), 23 Dec 2011

Sub/Clk(SD) Rajender Paul (JC-305861Y), 02 Jan 2012, J/05/CA2(C), 23 Dec 2011

Sub/Clk(SD) Jayakumaran R (JC-306214L), 02 Feb 2012, J/06/CA2(C), 06 Jan 2012

Sub/Clk(SD) Suresha J (JC-306304M), 04 Feb 2012, J/06/CA2(C), 06 Jan 2012

Sub/Clk(SD) Franklin J (JC-306334K), 14 Mar 2012, J/06/CA2(C), 06 Jan 2012

Sub/Clk(SD) M Sivanandam (JC-306341A), 03 Feb 2012, J/06/CA2(C), 06 Jan 2012

Sub/Clk(SD) Nandagopal L (JC-306360L), 05 Mar 2012, J/06/CA2(C), 06 Jan 2012

Sub/Clk(SD) K Soundera Rajan (JC-306543F), 05 Mar 2012, J/06/CA2(C), 06 Jan 2012

Sub/Clk(SD) Hemchandra Joshi (JC-306696L), 17 Feb 2012, J/06/CA2(C), 06 Jan 2012

Sub/Clk(SD) Sukhlal (JC-306740K), 01 Mar 2012, J/09/CA2(C), 13 Jan 2012

Sub/Clk(SD) Om Prakash Mishra (JC-306828N), 03 Mar 2012, J/09/CA2(C), 13 Jan 2012

Sub/Clk(SD) Saseedharan M (JC-306895Y), 02 Mar 2012, J/09/CA2(C), 13 Jan 2012

Sub/Clk(SD) K Madhivanan (JC-306951M), 07 Mar 2012, J/09/CA2(C), 13 Jan 2012

#### To be Subs Sub (Clk SD/IM)

Nb Sub/Clk(SD) Parshuram Singh (JC-308487M), 01 Dec 2011, J/49/CA2(C), 13 Oct 2011

Nb Sub/Clk(SD) G Chandrasekhar Wasudeo (JC-308506M), 02 Jan 2012, J/01/CA2(C), 16 Nov 2011

Nb Sub/Clk(SD) H Nishikant Waman Rao (JC-308507P), 01 Jan 2012, J/01/CA2(C), 16 Nov 2011

Nb Sub/Clk(SD) Yonus S (JC-308516W), 02 Jan 2012, J/01/CA2(C), 16 Nov 2011

Nb Sub/Clk(SD) Naizam TJ (JC-308517Y), 02 Jan 2012, J/01/CA2(C), 16 Nov 2011

Nb Sub/Clk(SD) A Lakshmi Kondaiah (JC-308518F), 01 Jan 2012, J/01/CA2(C), 16 Nov 2011

Nb Sub/Clk(SD) Moti Gir Goswami (JC-308519K), 01 Jan 2012, J/01/CA2(C), 16 Nov 2011

Nb Sub/Clk(SD) Radha Krishna Upadhyaya (JC-308520Y), 02 Jan 2012, J/01/CA2(C), 16 Nov 2011

Nb Sub/Clk(SD) Jitender Kumar Lamba (JC-308521F), 02 Jan 2012, J/01/CA2(C), 16 Nov 2011

Nb Sub/Clk(SD) Ramnath Singh (JC-308522K), 01 Feb 2012, J/07/CA2(C), 06 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Mahesh Prasad (JC-308523M), 01 Feb 2012, J/07/CA2(C), 06 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Durga Dat Pandey (JC-308524P), 01 Feb 2012, J/07/CA2(C), 06 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Rajendra Nath (JC-308544H), 01 Feb 2012, J/07/CA2(C), 06 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Tumma Siva Sankara Rao (JC-308545L), 01 Feb 2012, J/07/CA2(C), 06 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) B Prasan Kumar Patro (JC-308546N), 01 Feb 2012, J/07/CA2(C), 06 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Presennan G (JC-308547W), 01 Feb 2012, J/07/CA2(C), 06 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Ashok Kumar Tripathy (JC-308548Y), 01 Feb 2012, J/07/CA2(C), 06 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Balvir Singh (JC-308549F), 01 Mar 2012, J/10/CA2(C), 13 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Satheesh Kumar M (JC-308550W), 01 Mar 2012, J/10/CA2(C), 13 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Raj Kumar Singh (JC-308565Y), 05 Mar 2012, J/10/CA2(C), 13 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Suresh Kumar (JC-308566F), 01 Mar 2012, J/10/CA2(C), 13 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Mahesh Chandra Sharma (JC-308567K), 01 Mar 2012, J/10/CA2(C), 13 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Ganesh Singh Thapa (JC-308582Y), 01 Mar 2012, J/10/CA2(C), 13 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Ram Jeevan Rai (JC-308583F), 01 Mar 2012, J/10/CA2(C), 13 Jan 2012

Nb Sub/Clk(SD) Ram Kumar (JC-308584K), 01 Mar 2012, J/10/CA2(C), 13 Jan 2012

#### To be Subs Sub Maj (GD)

Rank/Trade, Name, JC No., Date of Substantive Promotion, Date of seniority without effect on pay and allces & Promotion order reference

Sub(GD) Appachan Chandi (JC-307107W), 01 Jul 2011, 01 Jul 2011, 1402/MC/CA2(J)/27, 28 Jun 2011

Sub(GD) E Vimalraj Fernando (JC-307348W), 01 Jul 2011, 01 Jul 2011, 1402/MC/CA2(J)/27, 28 Jun 2011

Sub(GD) Nisani vkNanda Raj (JC-307376H), 01 Jul 2011, 01 Jul 2011, 1402/MC/CA2(J)/27, 28 Jun 2011

Sub(GD) Vijayan V (JC-307391X), 01 Nov 2011, 01 Nov 2011, 1402/MC/CA2(J)/37, 17 Sep 2011

Sub(GD) Mohaman KL (JC-307418K), 01 Nov 2011, 01 Nov 2011, 1402/MC/CA2(J)/37, 17 Sep 2011

Sub(GD) M Chinnappan (JC-307445N), 01 Nov 2011, 01 Nov 2011, 1402/MC/CA2(J)/37, 17 Sep 2011

Sub(GD) Prabhakaran MV (JC-307469X), 02 Dec 2011, 01 Dec 2011\*, 1402/MC/CA2(J)/41, 13 Oct 2011

Sub(GD) Mohanachandran B (JC-307517M), 01 Jan 2012, 01 Jan 2012, 1402/MC/CA2(J)/01, 17 Nov 2011

Sub(GD) Srinivasan K (JC-307532F), 01 Jan 2012, 01 Jan 2012, 1402/MC/CA2(J)/01, 17 Nov 2011

Sub(GD) Raghupathy R (JC-307531Y), 01 Feb 2012, 01 Feb 2012, 1402/MC/CA2(J)/04, 17 Dec 2011

\*(Granted Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allces)

#### BENGAL ENGINEER GROUP

#### To be Nb Sub (GD)

Hav Rama Chandra Barik (No. 1482193Y now JC-339800N), 28 Feb 2012&

Hav Shyam Sunder Bourai (No. 1482562L now JC-339801W), 01 Mar 2012#

Hav Pratap Singh (No. 1482611H now JC-339802Y), 01 Mar 2012#

Hav Tajber Singh (No. 1482616F now JC-339803F), 01 Mar 2012#

Hav Bachan Singh (No. 1482638A now JC-339804K), 01 Mar 2012#

Hav Harish Kumar Rawat (No. 1482731F now JC-339805M), 01 Mar 2012#

Hav Sujoy Mandal (No. 1482797X now JC-339806P), 01 Mar 2012#

Hav Gajraj Singh (No. 1482830K now JC-339807X), 01 Mar 2012#

Hav Debraj Parida (No. 1482894P now JC-339808A), 19 Mar 2012#

Hav Parshotam Singh (No. 1482902H now JC-339809H), 01 Mar 2012#

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Suvenjit Ballav (No. 1483461K now JC-339810X), 06 Feb 2012\$

Hav Sujit Kumar Ghosh (No. 1483460F now JC-339811A), 10 Mar 2012+

Hav Thampy KT (No. 6390098F now JC-339812H), 06 Mar 2012@

Hav Devinder Singh (No. 6390825N now JC-339813L), 05 Mar 2012#

Hav Jaya Krushna Dash (No. 1485562W now JC-339814N), 01 Mar 2012#

Hav Mohammad Taj (No. 1485567P now JC-339815W), 01 Mar 2012#

Hav Surendra Prasad Pandey (No. 6390905L now JC-339816Y), 01 Mar 2012#

Hav Devinder Singh Sindhu (No. 6390908Y now JC-339817F), 01 Mar 2012#

Hav Kachare Bapusaheb Sakahari (No. 1485578F now JC-339818K), 01 Mar 2012#

To be Nb Sub/Svy Cat

Hav Bhagwan Singh (No. 1481957A now JC-339819M), 01 Mar 2012#

Hav Basu Dev (No. 1482070M now JC-339820F), 01 Mar 2012#

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Oct 2010 without effect on pay & allces)

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Dec 2011 without effect on pay & allces)

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Dec 2011 without effect on pay & allces)

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Feb 2012 without effect on pay & allces)

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2012 without effect on pay & allces)

REGULAR ARMY CORPS OF ENGINEERS MES  
MILITERISED CADRE

To be Nb Sub

Hav Sukhdev (No. 15314145F now JC-332576K), 27 Nov 2010A

Hav Shiv Kumar (No. 1488104L now JC-332577M), 01 Nov 2011A

Hav Ghasi Ram Kushwah (No. 1587478K now JC-332578P), 03 Mar 2012B

Hav Shaik Mahamd Hussain (No. 1586576X now JC-332579X), 07 Dec 2011B

Hav Samanta Chitrasen Muduli (No. 15336042H now JC-332580M), 30 Nov 2011B

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 and 27 Oct 2011 without effect on pay & allces)

Note :—

A Seniority wef 01 Oct 2010

B Seniority wef 27 Oct 2011

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Vijay Kumar Yadav (No. 1579996P now JC-352033Y), 01 Feb 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 with pay and allowances)

Hav (GD) Jai Singh (No. 1580000K now JC-352041A), 01 Mar 2012

Hav (GD) Siya Sharan Patel (No. 1580032M now JC-352042A), 01 Mar 2012

Hav (GD) Gulzar Singh (No. 1580122N now JC-352043H), 01 Mar 2012

Hav (GD) Iqbal Singh (No. 1580152L now JC-352044L), 01 Mar 2012

Hav (GD) Adsul Sharad Laxman (No. 1580170N now JC-352045N), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2012 with pay and allowances)

Hav (GD) Patil Machindra Khandu (No. 1579328Y now JC-352053M), 01 Apr 2012

Hav (GD) Raghubir Singh (No. 1579832Y now JC-352054P), 02 Apr 2012

Hav (GD) Shukla Nagendradev Shrikrishna (No. 1580189M now JC-352055X), 02 Apr 2012

Hav (GD) Mishra Sandip Devishankar (No. 15577713A now JC-352056A), 02 Apr 2012

Hav (GD) Kambale Sanjay Ramu (No. 1579839H now JC-352057H), 02 Apr 2012

Hav (GD) Bhendarkar Bhagwam Dudharam (No. 1580213X now JC-352058L), 12 Apr 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Rakesh Kumar Tiwari (No. 1580322K now JC-352059N), 02 Apr 2012

Hav (GD) Gajraj Singh Shakhtawat (No. 1580475N now JC-352060H), 03 Apr 2012

Hav (GD) Shio Kumar Singh (No. 15371379K now JC-352061L), 03 Apr 2012

Hav (GD) Serasia Hasan Bhai Ismail Bhai (No. 1580538L now JC-352062N), 03 Apr 2012

Hav (GD) Chaudhari Vilash Bhagwan (No. 1580548P now JC-352063W), 02 Apr 2012

Hav (GD) Satnam Singh (No. 1580611Y now JC-352064Y), 02 Apr 2012

Hav (GD) Mule Raju Damu (No. 1580673Y now JC-352065F), 02 Apr 2012

Hav (GD) Pappa Ram Jajada (No. 1580730P now JC-352066K), 07 Apr 2012

Hav (GD) Kale Kailash Trimbak (No. 1580846L now JC-352067M), 02 Apr 2012

Hav (GD) Surjit Singh (No. 1580847N now JC-352068P), 04 Apr 2012

Hav (GD) Gurdev Singh (No. 1581001Y now JC-352069X), 03 Apr 2012

Hav (GD) Jagjit Singh Pal (No. 1581064F now JC-352070M), 04 Apr 2012

Hav (GD) Balvinder Singh (No. 1581518K now JC-352071P), 02 Apr 2012

Hav (GD) Lawand Arun Shivaji (No. 1581852L now JC-352072X), 02 Apr 2012

Hav (GD) Dharamvir Singh (No. 1577762M now JC-352073A), 02 Apr 2012

Hav (GD) Daljit Singh (No. 1578467W now JC-352074H), 01 Apr 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Bade Lal (No. 1579802F now JC-352119X), 09 May 2012

Hav (GD) Gaikwad Maruti Jalinder (No. 1580192M now JC-352120M), 22 May 2012

Hav (GD) Charanjit Singh (No. 1580199W now JC-352121P), 01 Apr 2012

Hav (GD) Tarsem Singh (No. 1580377N now JC-352122X), 13 May 2012

Hav (GD) Soharb Khan (No. 1580459W now JC-352123A), 13 May 2012

Hav (GD) Kadam Laxman Yashwant (No. 1580725K now JC-352124H), 04 Jun 2012

Hav (GD) Amrik Singh (No. 1578531H now JC-352125L), 16 May 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Vijay Singh (No. 1578911F now JC-352131Y), 05 May 2012

Hav (GD) Rana Singh (No. 1579151W now JC-352132F), 04 May 2012

Hav (GD) Satpal Singh (No. 1579312N now JC-352133K), 21 May 2012

Hav (GD) Abdul Gani (No. 1579333K now JC-352134M), 29 May 2012

Hav (GD) Rajendra Prasad (No. 1579441N now JC-352135P), 09 May 2012

Hav (GD) Rajender Kumar (No. 1579571W now JC-352136X), 24 May 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Lakhmir Singh (No. 1579592M now JC-352146F), 01 Jun 2012

Hav (GD) Thokal Lalaji Bhanudas (No. 15563206F now JC-352147K), 01 Jun 2012

Hav (GD) Kulbir Singh (No. 15563856P now JC-352148M), 01 Jun 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 with pay and allowances)

Hav (GD) Zagde Dhairyasheel Subhan (No. 15564547Y now JC-352149P), 01 Jun 2012

Hav (GD) Yaduvir Singh (No. 15569248K now JC-352150K), 01 Jun 2012

Hav (GD) Jaswinder Singh (No. 15569900K now JC-352151M), 01 Jun 2012

Hav (GD) Jadhav Bhagwan Vitthal (No. 1579638K now JC-352152P), 01 Jun 2012

Hav (GD) Gogawale Sunil Laxman (No. 1579642M now JC-352153X), 12 Jun 2012

Hav (GD) Mohd. Arshad (No. 1579675X now JC-352154A), 01 Jun 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Harjinder Singh (No. 1579535L now JC-352079F), 27 Apr 2012

Hav (GD) Mohd. Rezwani Ansari (No. 1580138Y now JC-352080W), 01 Apr 2012

Hav (GD) Mohammad Mustkim (No. 1580176P now JC-352081Y), 10 Apr 2012

Hav (GD) Atma Singh (No. 1580200A now JC-352082F), 10 Apr 2012

Hav (GD) Geega Ram Jat (No. 1580247L now JC-352083K), 01 Apr 2012

Hav (GD) Gopal Singh (No. 1580311X now JC-352084M), 01 Apr 2012

Hav (GD) Hanuman Dutta Singh (No. 1580317Y now JC-352085P), 03 Apr 2012

Hav (GD) Ashok Kumar Gupta (No. 1580318F now JC-352086X), 10 Apr 2012

Hav (GD) Rati Ram (No. 1580369P now JC-352087A), 02 May 2012

Hav (GD) Balwinder Singh (No. 1580423X now JC-352088H), 23 Apr 2012

Hav (GD) Dharampal Singh (No. 1583284K now JC-352089L), 01 Apr 2012

Hav (GD) Ranjit Singh (No. 1579152Y now JC-352090A), 28 Apr 2012

Hav (GD) Rajinder Singh (No. 1580582P now JC-352091H), 16 Apr 2012

Hav (GD) Kuldip Singh (No. 1580994W now JC-352092L), 04 Apr 2012

Hav (GD) Gurdial Singh (No. 1581004M now JC-352093N), 04 Apr 2012

Hav (GD) Tarsem Singh (No. 1581052M now JC-352094W), 04 Apr 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Amritpal Singh (No. 1581081F now JC-352095Y), 01 May 2012

Hav (GD) Solanki Hardas Puna (No. 1581425P now JC-352096F), 04 Apr 2012

Hav (GD) Dhobi Narendra Prasad Chandrika Prasad (No. 1581466Y now JC-352097K), 04 Apr 2012

Hav (GD) Inderpal Singh (No. 1581485K now JC-352098M), 04 Apr 2012

Hav (GD) Onkar Singh (No. 1581597K now JC-352099P), 30 Apr 2012

Hav (GD) Karam Singh (No. 1581670X now JC-352100Y), 20 Apr 2012

Hav (GD) Bhosale Santosh Vinayak (No. 1581861M now JC-352101F), 01 Apr 2012

Hav (GD) Chougale Baban Rangrao (No. 1581894X now JC-352102K), 01 Apr 2012

Hav (GD) Jagjit Singh (No. 1583677A now JC-352103M), 01 Apr 2012

Hav (GD) Sukhwinder Singh (No. 1583837P now JC-352104P), 03 Apr 2012

Hav (GD) Jagdev Singh (No. 1577252L now JC-352105X), 10 Apr 2012

Hav (GD) Balwant Singh (No. 1577677K now JC-352106A), 04 Apr 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Mangrulkar Prakash Janardan (No. 1578443M now JC-352111L), 05 May 2012

Hav (GD) Amarjit Singh (No. 1578993P now JC-352112N), 05 May 2012

Hav (GD) Abdul Kalam Khan (No. 1579146L now JC-352113W), 04 May 2012

Hav (GD) Samai Singh (No. 1579382M now JC-352114Y), 04 May 2012

Hav (GD) Prem Chandra Pandey (No. 1579343N now JC-352115F), 04 May 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk SD)

Hav (Clk SD) Ram Nath Pal (No. 1582899H now JC-352031N), 27 Feb 2012



Hav (Clk SD) Devendra Kumar (No. 6933243M now JC-352032W), 10 Feb 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Satender Kumar (No. 6933269P now JC-352034F), 01 Mar 2012

Hav (Clk SD) Krishan Pal (No. 6933274M now JC-352035K), 01 Mar 2012

Hav (Clk SD) Jitendra Kumar (No. 6933283N now JC-352036M), 01 Mar 2012

Hav (Clk SD) Diwan Singh (No. 6933294A now JC-352037P), 01 Mar 2012

Hav (Clk SD) Jugbir Singh (No. 6933525L now JC-352038X), 01 Mar 2012

Hav (Clk SD) Dhoop Singh (No. 1583190M now JC-352039A), 01 Mar 2012

Hav (Clk SD) Pawar Suresh Agatrao (No. 1583353P now JC-352040P), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2012 with pay and allowances)

Hav (Clk SD) P Raju Kumar Singha (No. 1583558K now JC-352046W), 02 Apr 2012

Hav (Clk SD) Nandan Singh (No. 1583814N now JC-352047Y), 02 Apr 2012

Hav (Clk SD) Ram Naresh Pal (No. 6933939X now JC-352048F), 02 Apr 2012

Hav (Clk SD) Santosh R (No. 1584267W now JC-352049K), 02 Apr 2012

Hav (Clk SD) Ram Yagya (No. 1584285Y now JC-352050Y), 02 Apr 2012

Hav (Clk SD) Vijay Pal Singh (No. 1584289P now JC-352051F), 02 Apr 2012

Hav (Clk SD) Prakash V (No. 1584945L now JC-352052K), 02 Apr 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Rajinder Kumar (No. 1583055Y now JC-352075L), 09 Apr 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Pathak Chitrasen Dashrath (No. 1583818K now JC-352076N), 02 Apr 2012

Hav (Clk SD) Himat Singh Rao (No. 1584148A now JC-352077W), 12 Apr 2012

Hav (Clk SD) Salunkhe Madhukar Ekanath (No. 1584324M now JC-352078Y), 02 Apr 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Gopa Kumar R (No. 1584946N now JC-352107H), 05 May 2012

Hav (Clk SD) Prasanna Kumar (No. 1584947W now JC-352108L), 05 May 2012

Hav (Clk SD) Jagphool Malik (No. 1585490M now JC-352109N), 07 May 2012

Hav (Clk SD) Malkhan Singh Kushwah (No. 6389667X now JC-352110H), 07 May 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 with pay and allowances)

Hav (Clk SD) R Gunasekaran (No. 1583476F now JC-352126N), 18 May 2012

Hav (Clk SD) Anil Kumar Chaudhary (No. 1584152H now JC-352127W), 18 May 2012

Hav (Clk SD) Rasal Sandeep Arjun (No. 1585542X now JC-352128Y), 18 May 2012

Hav (Clk SD) Anjani Kumar (No. 6932457W now JC-352129F), 28 May 2012

Hav (Clk SD) Bimal Gautam (No. 1582566W now JC-352130W), 29 May 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Bhor Narayan Bhivaji (No. 6389503F now JC-352137A), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Amrik Singh (No. 1582404L now JC-352138H), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Kalyan Kumar Roy (No. 6932393W now JC-352139L), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Murugan P (No. 1582873N now JC-352140A), 04 Jun 2012

Hav (Clk SD) Umesh Kumar Joshi (No. 1582894K now JC-352141H), 01 Jun 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 with/without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Ram Datt Sharma (No. 6933227P now JC-352142L), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Kishanpal Singh (No. 6933228X now JC-352143N), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Harbir Singh (No. 6933266N now JC-352144W), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Ram Narayan (No. 1583146H now JC-352145Y), 01 Jun 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 with pay and allowances)

Hav to be Nb Sub (SK)

Hav (SK) K Sekaran (No. 15310245P now JC-352030L), 29 Aug 2011

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Pattan Kasim Khan (No. 1587781L now JC-352117M), 14 Jun 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) G Ravi (No. 1587813H now JC-352118P), 19 Jun 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

R PANDIYAN  
Dy Secy

#### ARMY BRANCH

No. 471, dated 18th October 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY MEDICAL CORPS

#### To be Subs Sub (N TECH)

Nb Sub Pramod Singh Ranghar (JC-694272N), 14 Aug 2009

Nb Sub Kamlesh Kumar Pandey (JC-694307Y), 14 Aug 2009

Nb Sub Puran Chandra Joshi (JC-694607A), 14 Aug 2009

Nb Sub AVR Srinagesh (JC-694608H), 14 Aug 2009

Nb Sub Paul NP (JC-694609L), 14 Aug 2009

Nb Sub Chandra Mohan Singh (JC-694610A), 14 Aug 2009

Nb Sub Ramesh Chand (JC-694611H), 14 Aug 2009

Nb Sub Ranbir Singh (JC-694612L), 14 Aug 2009

Nb Sub Onkar (JC-694613N), 14 Aug 2009

Nb Sub Sonawane Shri Ram Thakunath (JC-694614W), 14 Aug 2009

Nb Sub Satish Kumar (JC-694615Y), 14 Aug 2009

Nb Sub Dinesh Chandra (JC-694616F), 14 Aug 2009

Nb Sub Bare Lal (JC-694617K), 14 Aug 2009

Nb Sub Ashok Kumar Mishra (JC-694618M), 14 Aug 2009

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-694619P), 14 Aug 2009

Nb Sub Ajeet Singh (JC-694620K), 14 Aug 2009

Nb Sub Dhumal Kalidas Narsing (JC-694621M), 14 Aug 2009

Nb Sub Gopal Singh Samanta (JC-694623X), 14 Aug 2009

Nb Sub Awate Mangaldas Maruti (JC-694624A), 14 Aug 2009

Nb Sub Brijesh Kumar Mishra (JC-694625H), 14 Aug 2009

Nb Sub P Chandra Sekaran (JC-694626L), 14 Aug 2009

Nb Sub Bharat Bhusan Verma (JC-694627N), 14 Aug 2009

Nb Sub Dinesh Pandey (JC-694629Y), 14 Aug 2009

Nb Sub Navin Chandra (JC-694630N), 14 Aug 2009

Nb Sub Kailash Chandra Singh (JC-694631W), 14 Aug 2009

Nb Sub Rajendra Kumar Joshi (JC-694632Y), 14 Aug 2009

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-694633F), 14 Aug 2009

Nb Sub Mamraj Singh (JC-694634K), 14 Aug 2009

Nb Sub Vyas Jayesh Arvind Bhai (JC-694635M), 14 Aug 2009

Nb Sub Ashok Kumar VR (JC-694636P), 14 Aug 2009

Nb Sub Mahesh Bux Singh (JC-694936W), 14 Aug 2009

Nb Sub Manoj Kumar (JC-694946A), 14 Aug 2009

Nb Sub Satvir Sharma (JC-694911K), 14 Aug 2009

Nb Sub A Mahammadali (JC-694937Y), 14 Aug 2009

Nb Sub Suwada Sivanarayana (JC-694927P), 14 Aug 2009

Nb Sub Kumara HS (JC-694947H), 14 Aug 2009

Nb Sub Narayan Singh Parihar (JC-694895X), 14 Aug 2009

Nb Sub Mahendra Prasad Mishra (JC-694896A), 14 Aug 2009

Nb Sub Jagdish Chandra Singh (JC-694928X), 14 Aug 2009

Nb Sub Theophil Kujur (JC-694904N), 14 Aug 2009

Nb Sub Devendra Singh (JC-694988M), 14 Aug 2009

Nb Sub N Mahendran (JC-694897H), 14 Aug 2009

Nb Sub Jadhav Hemant Kumar Jay Singh Rao (JC-694929A), 14 Aug 2009

Nb Sub Shyam Singh (JC-694941F), 14 Aug 2009

Nb Sub Krishna (JC-694930P), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Ashok Kumar (JC-694913P), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Naresh Kumar (JC-694912M), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Rukum Pal Singh (JC-694938F), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Shiv Shankar Bora (JC-694898L), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Rakesh Kumar Tripathi (JC-694931X), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Subhash Chander (JC-694899N), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Rajesh Kumar (JC-694900X), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Ram Kishore (JC-694901A), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Puspraj Singh (JC-694942K), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Vinay Kumar Pandey (JC-694939K), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Srinibash Mahapatra (JC-694905W), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Jai Narayan Rajput (JC-694948L), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Biju Mathew (JC-694902H), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Rakesh Kumar Tripathi (JC-694903L), 14 Aug 2009  
 Nb Sub N Palaniyandi (JC-694943M), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Vinod Kumar (JC-695499N), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Abdhesh Kumar Giri (JC-695500X), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Mandalik Ravindra Rava Saheb (JC-695501A), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Samy Singh (JC-695502H), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Kailash Chand Yadav (JC-695503L), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Dashrath Singh Nathawat (JC-695504N), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Narayan Ram (JC-695505W), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Rajesh Kumar (JC-695506Y), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Dhana Balan R (JC-695507F), 14 Aug 2009  
 Nb Sub K Vinod Kumar (JC-695508K), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Mohan Bahadur Thapa (JC-695518N), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Padmanabhan KV (JC-695510F), 14 Aug 2009  
 Nb Sub Binoj G (JC-695511K), 04 Sep 2009  
 Nb Sub S Suraj (JC-695512M), 04 Sep 2009  
 Nb Sub Raj Kumar (JC-695513P), 09 Nov 2009  
 Nb Sub Pravin Singh (JC-695509M), 01 Feb 2010  
 Nb Sub Nandan Singh (JC-695514X), 01 Mar 2010  
 Nb Sub Mahesh Chand (JC-695515A), 01 Jun 2010

Nb Sub Arun Kumar Singh (JC-695516H), 01 Jul 2010  
 Nb Sub Sharad Vashisth (JC-695519W), 01 Nov 2010  
 Nb Sub Omkar Dutt Belwal (JC-695517L), 01 Nov 2010  
 Nb Sub Chande Sadhu Pundlik Rao (JC-695520L), 01 Nov 2010  
 Nb Sub Akhilesh KR Singh (JC-695521N), 01 Dec 2010  
 Nb Sub Narendra Singh (JC-695522W), 01 Dec 2010  
 Nb Sub Santhosh Manuval (JC-695523Y), 01 Jan 2011  
 Nb Sub N Sita Ramanjaneyulu (JC-695524F), 01 Apr 2011  
 Nb Sub Rajender Singh Bisht (JC-695525K), 01 Apr 2011  
 Nb Sub Bibhu Prasad Samal (JC-695526M), 01 May 2011  
 Nb Sub Jadhav Dadasaheb Anand Rao (JC-695770M), 01 May 2011  
 Nb Sub Jaivir Singh (JC-695771P), 01 May 2011  
 Nb Sub Sher Mohammad (JC-695739A), 01 Jul 2011  
 Nb Sub Ashok Kumar (JC-695772X), 01 Nov 2011  
 Nb Sub Sukhbir Singh Suhag (JC-695773A), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Praphulla Kumar Tiwari (JC-695774H), 01 Feb 2012  
 Nb Sub Satyendra Kumar Tiwary (JC-695775L), 01 Feb 2012  
 Nb Sub C Santhosh (JC-695776N), 01 Feb 2012  
 Nb Sub Anil Manral (JC-695777W), 01 Feb 2012  
 Nb Sub Sudhi Kumar KV (JC-695778Y), 01 Apr 2012  
 Nb Sub Surendra Singh Bhandari (JC-695779F), 01 Apr 2012  
 Nb Sub MV Karunakaran (JC-695780W), 01 May 2012  
 Nb Sub Sanjeev Kumar Sharma (JC-695781Y), 01 Jun 2012

To be Subs Sub (Dvr MT)

Nb Sub Nagendra Bahadur Singh (JC-697554X), 01 Jan 2009

Nb Sub Ram Mehar (JC-696147H), 01 Nov 2011

To be Subs Nb Sub (CHEF H)

Hav Chandra Mani Prasad Tiwari (No. 13965375H now JC-697747X), 08 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Chhotelal Shiosagar (No. 13965576F now JC-697842K), 01 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Arjun Singh (No. 13965828H now JC-698130N),  
01 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Pawan Kumar (No. 13964934P now JC-698232K),  
07 Oct 2011\*

Hav Durga Singh (No. 13966313P now JC-698234P),  
04 Oct 2011\*

Hav Janardan Prasad Mishra (No. 13966647K now JC-698235X), 01 Oct 2011\*

Hav Ambika Prasad (No. 13966754L now JC-698236A),  
05 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jiwanand Jha (No. 13966785L now JC-698252X),  
04 Nov 2011\*

Hav Jagdish Chandra (No. 13966798H now JC-698275Y),  
16 Nov 2011\*

Hav Neebu Lal (No. 13966799L now JC-698251P), 08 Nov 2011\*

Hav Hari Charan Das (No. 13966989X now JC-698276F),  
05 Nov 2011\*

Hav Narendra Singh (No. 13968994F now JC-698355W),  
02 Dec 2011\*

Hav Daya Nidhi Singh (No. 13969230P now JC-698273N),  
11 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ray Singh (No. 13969304Y now JC-698348A), 01 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Mahabir Prasad (No. 13969800A now JC-698370L),  
09 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Punaji Bhau Sengal (No. 13969302N now JC-698416H),  
16 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Operation Rom Assistant)

Hav Azad Singh (No. 13970267H now JC-697494N),  
05 Mar 2010\*

Hav Umesh Kumar Tiwari (No. 13970297A now JC-697495W), 04 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Animesh Nath (No. 13970579Y now JC-697499M),  
01 Apr 2010\*

Hav Rakesh Kumar Gupta (No. 13970486K now JC-697507A), 01 Apr 2010\*

Hav Vikram Singh Bajia (No. 13970731F now JC-697530N),  
13 Apr 2010\*

Hav Prem Narayan (No. 13970570K now JC-697531W),  
08 Apr 2010\*

Hav Dhiri Singh (No. 13970564W now JC-697532Y),  
13 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Dev Singh (No. 13970674L now JC-697533F),  
01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Karunendra Singh (No. 13970676W now JC-697575N),  
01 Jun 2010\*

Hav Aruna Kumar Mukherjee (No. 13970750M now JC-697739Y), 01 Jun 2010\*

Hav Birajdar Udhav Digambar (No. 13970844K now JC-697576W), 01 Jun 2010\*

Hav Sunil Kumar Choudhary (No. 13971050L now JC-697577Y), 02 Jun 2010\*

Hav Satpal (No. 13971071F now JC-697578F), 01 Jun 2010\*

Hav Rajendra Singh (No. 13971714N now JC-697579K),  
03 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kharak Singh Bisht (No. 13971710X now JC-697580Y),  
01 Jul 2010\*

Hav Jai Prakash (No. 13971708A now JC-697741W),  
01 Jul 2010\*

Hav Vijnder Singh (No. 13971848M now JC-697666X),  
13 Jul 2010\*

Hav Biradar Somnath Kashinath (No. 13971871A now JC-698065Y), 15 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kailash Chandra (No. 13971947P now JC-697692Y),  
10 Aug 2010\*

Hav Ajoy Kumar Yadav (No. 13971938N now JC-697667A),  
02 Aug 2010\*

Hav Ugrasen Patel (No. 13971996X now JC-697693F),  
02 Aug 2010\*

Hav Niranjana Lal (No. 13972028M now JC-697701P),  
17 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Surendra Singh (No. 13972082A now JC-697702X),  
01 Sep 2010

Hav Chandan Chatterjee (No. 13972107F now JC-  
697703A), 01 Sep 2010\*

Hav Ramesh Chandra (No. 13972132A now JC-697704H),  
01 Sep 2010\*

Hav Kumud Sharma (No. 13969887M now JC-697705L),  
01 Sep 2010\*

Hav Jagat Pal (No. 13972123Y now JC-697706N), 01 Sep  
2010\*

Hav Vikraman KM (No. 13969616P now JC-697751A),  
01 Sep 2010\*

Hav Ram Singh (No. 13972114X now JC-697707W),  
01 Sep 2010\*

Hav Patil Bhimgonda Kalagonda (No. 13972248W now  
JC-697708Y), 01 Sep 2010\*

Hav Nalwade Balwant Raghunath (No. 13972239P now  
JC-697709F), 01 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Rajendra Udaji (No. 13972247N now JC-  
697752H), 26 Oct 2010\*

Hav Gaikwad Manohar Saheb Rao (No. 13972218Y now  
JC-697988X), 30 Oct 2010\*

Hav Kodag Dhyaneswar Dada (No. 13972216N now JC-  
697753L), 26 Oct 2010\*

Hav Pawar Shivaji Tukaram (No. 13972250N now JC-  
697809M), 08 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Parab Mohan Parsu Ram (No. 13972359N now JC-  
697849N), 01 Dec 2010\*

Hav Surinder Singh (No. 13972376N now JC-697850H),  
01 Dec 2010\*

Hav Ranbir Singh (No. 13972546M now JC-697851L),  
01 Dec 2010\*

Hav S Venkatesan (No. 13972640W now JC-697852N),  
01 Dec 2010\*

Hav Daya Nand (No. 13972569N now JC-697853W),  
01 Dec 2010\*

Hav Sunder Lal (No. 13972572N now JC-697867W),  
10 Dec 2010\*

Hav Jagdeo Khaire Nimgaon (No. 13972735W now JC-  
697854Y), 01 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Birendra Prasad (No. 13972159X now JC-697914H),  
08 Jan 2011\*

Hav Uday Singh Chouhan (No. 13972813H now JC-  
697891M), 01 Jan 2011\*

Hav Pradeep Kumar (No. 13972076M now JC-697876X),  
01 Jan 2011\*

Hav Sri Shiv Shankar Verma (No. 13972810P now JC-  
697918Y), 01 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav Pradeep Kumar Behera (No. 13972864W now JC-  
697923K), 01 Feb 2011\*

Hav Ram Naresh Dubey (No. 13972778L now JC-  
697924M), 01 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Manoj Mandal (No. 13972868M now JC-698012A),  
18 Mar 2011\*

Hav Shib Pada Mondal (No. 13972888A now JC-697975A),  
01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Prem Kumar Singh (No. 13972874A now JC-698014L),  
05 Apr 2011\*

Hav MD Nasaruddina (No. 13972875H now JC-699015N),  
04 Apr 2011\*

Hav Mohammad Jalilur Rahman (No. 13972937X now JC-  
698016W), 08 Apr 2011\*

Hav Bikram Singh Rawat (No. 13972907A now JC-  
698017Y), 01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Stanley MM (No. 13972983M now JC-698062L),  
18 May 2011\*

Hav Santosh Kumar Singh (No. 13973215X now JC-  
698066F), 13 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Mane Govind Rangrao (No. 13973463N now JC-  
698122P), 01 Jul 2011\*

Hav Mahendra Pratap Singh Rathore (No. 13973448Y  
now JC-698125H), 01 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav MD Anzer Alam (No. 13973617P now JC-698148K),  
01 Aug 2011\*

Hav Jani Uday Babu Bhai (No. 13973927A now JC-698149M), 01 Aug 2011\*

Hav Rajkumar Singh Bhati (No. 13974135M now JC-698153P), 01 Aug 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Banshi Lal Suthar (No. 13974282P now JC-698181F),  
17 Aug 2011\*

Hav G Srinivasulu (No. 13974248P now JC-698319L),  
29 Aug 2011\*

Hav Balwan Singh (No. 13974245F now JC-698183M),  
29 Aug 2011\*

Hav Subash Chander (No. 13972015P now JC-698184P),  
29 Aug 2011\*

Hav Pushpinder Singh (No. 13974327K now JC-698185X),  
27 Aug 2011\*

Hav Masarapu Ramchandra Naidu (No. 13974358K now JC-698186A), 02 Sep 2011\*

Hav H Pragaladan (No. 13974432A now JC-698187H),  
03 Sep 2011\*

Hav Virender Prasad Silswal (No. 13974576H now JC-698188L), 13 Aug 2011\*

Hav Dharendra Singh Rawat (No. 13974555M now JC-698189N), 27 Aug 2011\*

Hav Narendra Kumar (No. 13974561A now JC-698190H),  
29 Aug 2011\*

Hav Chandra Shekhar (No. 13974575A now JC-698191L),  
30 Aug 2011\*

Hav Satyendra Singh (No. 13974568K now JC-698192N),  
29 Aug 2011\*

Hav Pooran Chandra Joshi (No. 13974603F now JC-698193W), 12 Sep 2011\*

Hav Sushil Kumar (No. 13974697K now JC-698194Y),  
02 Sep 2011\*

Hav Hari Kishan Bhuriya (No. 13974898H now JC-698195F), 10 Sep 2011\*

Hav Suseel Kumar V (No. 13975153F now JC-698196K),  
09 Sep 2011\*

Hav Bhola Nath Singh (No. 13975121Y now JC-698197M),  
25 Aug 2011\*

Hav Vinod Kumar Pandey (No. 13975119F now JC-698198P), 02 Sep 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Kumar (No. 13975187P now JC-698384L),  
03 Oct 2011\*

Hav Ramachandrakurup D (No. 13975225A now JC-698217P), 26 Sep 2011\*

Hav Ganesh Singh (No. 13975171K now JC-698320A),  
26 Sep 2011\*

Hav Jeetendra Kumar Rai (No. 13975170F now JC-698218X), 30 Sep 2011\*

Hav Balachandran Nair V (No. 13975247Y now JC-698219A), 01 Oct 2011\*

Hav Sajimon PS (No. 13975244L now JC-698220P), 03 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Vinod KA (No. 13975165W now JC-698387Y), 03 Jan 2012\*

Hav Surender Singh (No. 13975159H now JC-698336L),  
16 Dec 2011\*

Hav Golam Mortuza (No. 13975180L now JC-698337N),  
19 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Dharmaveer Singh (No. 13975182W now JC-698338W), 22 Dec 2011\*

Hav Surajit Saha (No. 13975178N now JC-698339Y),  
20 Dec 2011\*

Hav Bharat Tiwari (No. 13975168K now JC-698388F),  
28 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Solanki Gulab Singh Devabhai (No. 13975210X now JC-698392K), 02 Jan 2012\*

Hav Patel Ghanshyam Bhai Chandu Lal (No. 13975216Y now JC-698393M), 02 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Chamar Natu Bhai Alkhabhai (No. 13975219M now JC-698432A), 07 Feb 2012\*

Hav Satyendra Kumar (No. 13975296F now JC-698469F),  
03 Mar 2012\*

Hav K Soundara Rajan (No. 13975377F now JC-698433H),  
15 Feb 2012\*

Hav Praveen Kumar Sharma (No. 13975341H now JC-698470W), 02 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Anbu J (No. 13975399A now JC-698474M), 03 Mar 2012\*

Hav Moule Rajendra Kashinath (No. 13975384X now JC-698475P), 13 Mar 2012\*

Hav Ranjiv Singh (No. 13975421A now JC-698476X), 01 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kaushalendra Singh Chuhan (No. 13975457Y now JC-698513A), 02 Apr 2012\*

Hav Anil Kumar Singh (No. 13975448X now JC-698514H), 13 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ravindra Singh Hada (No. 13975509K now JC-698536F), 01 May 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Religious Teacher)

RRT Santosh Kumar Pandey (No. 696374H now JC-696374H), 15 Nov 2008\*

RRT Arun Kumar Pandey (No. 696376N now JC-696376N), 15 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Nov 2008 without effect on pay and allces)

RRT Jitender Kumar Sharma (No. 696973H now JC-696973H), 14 Nov 2009\*

RRT Bindra Vasi Tiwari (No. 696974L now JC-696974L), 14 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Nov 2009 without effect on pay and allces)

RRT Kamlesh Kumar Pathak (No. 6945013L now JC-697779A), 30 Jan 2010\*

RRT Sandeep Kumar (No. 697011L now JC-697011L), 30 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Jan 2010 without effect on pay and allces)

RRT Basant Kumar (No. 9424864K now JC-697746P), 15 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 May 2010 without effect on pay and allces)

RRT Krishna Prakash Tiwari (No. 15155833L now JC-698161N), 19 Feb 2011\*

RRT Sudhakar (No. 14440116H now JC-698162W), 19 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Feb 2011 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Pharmacist)

Hav Srinivasa Rao Gudavalli (No. 13975393Y now JC-697581F), 02 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allces)

Hav MD Sahadulla (No. 13975592M now JC-697961A), 09 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allces)

Hav Laxman Prasad Kahar (No. 13980609Y now JC-697521M), 21 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allces)

Hav Dina Bandhu Mondal (No. 13980400N now JC-697763P), 02 Oct 2010\*

Hav Radhe Shyam Sharma (No. 13980554A now JC-697582K), 01 Jun 2010\*

Hav Gunasekaran D (No. 13980543N now JC-697742Y), 02 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)

Hav Dashrath Maurya (No. 13980899F now JC-697677K), 12 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allces)

Hav Parveen Singh (No. 13978057X now JC-697748A), 04 Aug 2010\*

Hav Jagat Narayan (No. 13980636H now JC-698478H), 01 Mar 2012\*

Hav Sushil Kumar Singh (No. 1396665A now JC-697843M), 02 Dec 2010\*

Hav Govind Singh Chohan (No. 13981180F now JC-697696P), 01 Sep 2010\*

Hav Carlus Minj (No. 13981451N now JC-698213Y), 21 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)

Hav Govind Singh (No. 13980649A now JC-697697X), 02 Sep 2010\*

Hav Mandroop Ram Khoja (No. 13982107P now JC-697698A), 01 Sep 2010\*

Hav Harish Chandra Dumka (No. 13982679W now JC-697699H), 01 Sep 2010\*

Hav M Ramachandran (No. 13981728F now JC-697700M), 01 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allces)

Hav C Ramachandran (No. 13976038N now JC-697885Y),  
01 Dec 2010\*

Hav C Ravi Kumar (No. 13976859H now JC-697798L),  
01 Nov 2010\*

Hav Jasvir (No. 13978054K now JC-697860M), 01 Dec  
2010\*

Hav Jai Narayan Sharma (No. 13981831N now JC-  
697799N), 08 Nov 2010\*

Hav Indrajeet Singh (No. 13981939K now JC-697800X),  
10 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allces)

Hav Sivaji E (No. 13981792Y now JC-697801A), 19 Nov  
2010\*

Hav Kushal Singh (No. 13981954Y now JC-697750X),  
01 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2010 without effect on pay and allces)

Hav Dinesh Chandra Singh (No. 13981662W now JC-  
697886F), 03 Dec 2010\*

Hav Surjan Singh Chauhan (No. 13982644A now JC-  
697861P), 01 Dec 2010\*

Hav Arun Kumar Tripathi (No. 13982683Y now JC-  
697862X), 01 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec  
2010 without effect on pay and allces)

Hav Surendra Singh (No. 13980972P now JC-697916N),  
10 Jan 2011\*

Hav M Kumar (No. 13981791W now JC-697917W), 01 Jan  
2011\*

Hav Shivakant Tripathi (No. 13981357K now JC-697887K),  
01 Jan 2011\*

Hav C Thamarai Kannan (No. 13981729K now JC-  
697888M), 01 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011  
without effect on pay and allces)

Hav Vinendran M (No. 13982611P now JC-697929L),  
01 Feb 2011\*

Hav Bhakta Raj Maurya (No. 13983178H now JC-  
697930A), 01 Feb 2011\*

Hav Harish Lal (No. 13983190K now JC-697931H), 03 Feb  
2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Thakare Ashok Tryambakrao (No. 13980757K now  
JC-698177Y), 11 Aug 2011\*

Hav Deepak Kumar Joshi (No. 13981674L now JC-  
698020Y), 01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2011 without effect on pay and allces)

Hav R Siva Raj (No. 13981534Y now JC-698054M),  
02 May 2011\*

Hav N Muthaiyan (No. 13983126M now JC-698064W),  
14 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Parmod Kumar Mishra (No. 13983175P now JC-  
698115Y), 01 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Manoj Kumar Dubey (No. 13981758Y now JC-  
698123X), 01 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011  
without effect on pay and allces)

Hav Asis Kumar Maji (No. 13981153X now JC-698182K),  
01 Sep 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Mukesh Kumar Mudagal (No. 13983227A now JC-  
698298A), 01 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Bishwajyoti Buragohain (No. 13978049Y now JC-  
698322L), 29 Nov 2011\*

Hav Maruthaiyan K (No. 13982785P now JC-698305L),  
01 Nov 2011\*

Hav Kushnarayan Jaiswal (No. 13981359P now JC-  
698390Y), 22 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Arun Kumar Pandey (No. 13980380L now JC-  
698399N), 02 Jan 2012\*

Hav Jalke Nand Kishore Namdeo Rao (No. 13979889L  
now JC-698400X), 05 Jan 2012\*

Hav Palas Kumar Das (No. 13981270H now JC-698401A),  
10 Jan 2012\*

Hav Harish Chandra Kand Pal (No. 13983213A now JC-  
698402H), 02 Jan 2012\*

Hav Ram Ganesh Upadhyay (No. 13983880N now JC-  
698428X), 20 Jan 2012\*



Hav N Sadasivam (No. 13984009N now JC-698429A),  
25 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allces)

Hav Anoop Paramasivan Nair (No. 13981250P now JC-  
698430P), 01 Feb 2012\*

Hav Sharvan Kumar Mishra (No. 13981814M now JC-  
698431X), 01 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allces)

Hav Nandan Singh (No. 13983211P now JC-698479L),  
01 Mar 2012\*

Hav Deshmukh Dattatray Vishanu (No. 13983571L now  
JC-698480A), 01 Mar 2012\*

Hav R Paul Pandi (No. 13984016K now JC-698481H),  
01 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2012 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Hygiene Assistant)

Hav Narendra Singh Rathore (No. 13975271P now JC-  
697490X), 04 Mar 2010\*

Hav Chander Chur Prasad (No. 13976293A now JC-  
697572A), 01 Jun 2010\*

Hav Sanjeev Kumar (No. 13976297W now JC-697695M),  
16 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Aug  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Mohasin KK (No. 13974625A now JC-697475H),  
22 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2010 without effect on pay and allces)

Hav Kamal Kishore (No. 13978463X now JC-697509L),  
03 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2010 without effect on pay and allces)

Hav Lalla Singh (No. 13964108P now JC-697676F),  
03 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010  
without effect on pay and allces)

Hav Amrendra Tiwari (No. 13969203L now JC-697744K),  
09 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep  
2010 without effect on pay and allces)

Hav L Anthony Samy (No. 13972649L now JC-697754N),  
01 Nov 2010\*

Hav Udaya Kumar S (No. 13977867N now JC-697869F),  
18 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allces)

Hav Ajaya Kumar P (No. 13977993A now JC-697802H),  
18 Nov 2010\*

Hav Saju K P (No. 13979896F now JC-697755W), 01 Nov  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Ram Awadh Singh Yadav (No. 13980378N now JC-  
697881H), 01 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011  
without effect on pay and allces)

Hav Jarnail Singh (No. 13980444L now JC-697970F),  
01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Upinder Jeet Singh (No. 13978462P now JC-698118M),  
28 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Mar  
2012 without effect on pay and allces)

Hav Shirbhate Rajesh Bajirao Ji (No. 13980469X now JC-  
698119P), 16 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Chhote Lal Singh (No. 13980534M now JC-698120K),  
01 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Jahar Lal Dash (No. 13980540A now JC-698121M),  
01 Jul 2011\*

Hav Braj Kishore Singh (No. 13980608W now JC-  
698127N), 07 Jul 2011\*

Hav Partap Singh Jakhar (No. 13980656W now JC-  
698128W), 01 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011  
without effect on pay and allces)

Hav Avinash Chander (No. 13979019N now JC-698296P),  
29 Oct 2011\*

Hav Raj Kumar Parmar (No. 13980631K now JC-698297X),  
11 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Ramesh Chandra Tripathi (No. 13980640L now JC-  
698301P), 05 Nov 2011\*

Hav Pradip Kumar Upadhyay (No. 13978007M now JC-698302X), 01 Nov 2011\*

Hav Ashok Kumar (No. 13980369M now JC-698303A), 03 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allces)

Hav Asokan MS (No. 13980968M now JC-698394P), 01 Jan 2011\*

Hav Kamakhya Narayan Singh (No. 13976851W now JC-698395X), 02 Jan 2011\*

Hav Shiva Prasad B R (No. 13980186W now JC-698396A), 01 Jan 2012\*

Hav Kuldeep Singh (No. 13980679X now JC-698397H), 03 Jan 2012\*

Hav Raja F (No. 13980456A now JC-698398L), 01 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allces)

Hav Dharmendr Kumar Krishnia (No. 13980977N now JC-698422W), 01 Feb 2012\*

Hav Kishore Chandra Sahoo (No. 13980537A now JC-698423Y), 10 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allces)

Hav Prabodh Kumar Hazra (No. 13980416Y now JC-698471Y), 01 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allces)

Hav Mahipal Singh (No. 13980821W now JC-698515L), 01 Apr 2012\*

Hav Satish Kumar (No. 13981412P now JC-698516N), 01 Apr 2012\*

Hav Tapas Kumar Das (No. 13980617X now JC-698517W), 09 Apr 2012\*

To be Nb Sub (Special Treatment Assistant)

Hav Shashi Kant Kumar (No. 13959532N now JC-697498K), 01 Apr 2010\*

Hav Raksh Pal Singh Tomar (No. 13958914L now JC-697510A), 03 Apr 2010\*

Hav Rameshwar Yadav (No. 13961795L now JC-697665P), 01 Apr 2010\*

Hav Aditya Singh (No. 13965043Y now JC-697534K), 12 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Ranjit Singh Parihar (No. 13965073W now JC-697570P), 01 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)

Hav Nawal Kishore Singh (No. 13965571H now JC-697694K), 01 Aug 2010\*

Hav Rajesh Kumar Yadav (No. 13965542N now JC-697668H), 02 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)

Hav Radha Krishnan K (No. 13966880X now JC-697743F), 20 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allces)

Hav Ranvir (No. 13967280F now JC-697845X), 01 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allces)

Hav Muraleedharan Pillai KR (No. 13967373W now JC-697872F), 01 Jan 2011\*

Hav Kshirsagar Vitthal Bhairu (No. 13967499W now JC-697873K), 01 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allces)

Hav Dara Singh Mahara (No. 13967645L now JC-697919F), 01 Feb 2011\*

Hav Manoj Kumar Pathak (No. 13967709L now JC-697920W), 01 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allces)

Hav Wakre Kishor Bhau Rao (No. 13967781F now JC-697963L), 01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allces)

Hav Chandra Gouda Patil (No. 13968029X now JC-698018F), 01 Apr 2011\*

Hav Hari Shanker Singh (No. 13968644P now JC-698215K), 07 Oct 2011\*

Hav Asu Das Swami (No. 13969007L now JC-698019K), 01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allces)

Hav Jalim Singh (No. 13969221N now JC-698111H), 01 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allces)

Hav Senthil Kumar D (No. 13971983A now JC-698434L),  
09 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2011 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Psychiatric Nursing Assistant)

Hav Raja Ram (No. 13966357M now JC-697491A),  
29 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2010 without effect on pay and allces)

Hav Barun Kumar Singh (No. 13966601F now JC-  
697523X), 10 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2010 without effect on pay and allces)

Hav Dinesh Singh (No. 13966609N now JC-697710W),  
01 Sep 2010\*

Hav Mahendrapal Singh Gusain (No. 13967037K now JC-  
697711Y), 01 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep  
2010 without effect on pay and allces)

Hav Surinder Kumar (No. 13967257N now JC-697971K),  
01 Mar 2011\*

Hav Subhash Kumar Sharma (No. 13967563H now JC-  
697972M), 01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2011 without effect on pay and allces)

Hav M Naba Kumar Singha (No. 13970512A now JC-  
698323N), 01 Dec 2011\*

Hav Patil Prabhakar Shankar (No. 13972256P now JC-  
698324W), 08 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec  
2012 without effect on pay and allces)

Hav Barda Nand Goswamy (No. 13972846N now JC-  
698504Y), 10 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allces)

Hav-Shambhu Mandal (No. 13973294X now JC-698472F),  
01 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2012 without effect on pay and allces)

Hav Pradip Kumar (No. 13973435F now JC-698512X),  
02 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2012 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Blood Transfusion Assistant)

Hav Subedar Prasad Yadav (No. 13963649K now JC-  
697889P), 01 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011  
without effect on pay and allces)

Hav Prabhakar Singh Jadaun (No. 13964333K now JC-  
697962H), 01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Rajesh Prasad (No. 13964434X now JC-698124A),  
28 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Brahmadeo Singh (No. 13965486A now JC-698304H),  
08 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2011 without effect on pay and allces)

Hav Hitesh Das (No. 13968269P now JC-698403L), 01 Jan  
2012\*

Hav Surendra Kumar (No. 13971156X now JC-698404N),  
02 Jan 2012\*

Hav Birendra Kumar Sharma (No. 13976041N now JC-  
698376M), 02 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allces)

Hav Dhanpat Singh (No. 13976143K now JC-698424F),  
01 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allces)

Hav Anandi Kumar Dubey (No. 13976294H now JC-  
698473K), 01 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2012 without effect on pay and allces)

Hav Jaya Kumar R (No. 13976612F now JC-698510M),  
02 Apr 2012\*

Hav Samay Pal (No. 13976714X now JC-698511P), 01 Apr  
2012

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2012 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Physiotherapy Assistant)

Hav D Janarthanan (No. 13966365L now JC-697574L),  
01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010  
without effect on pay and allces)

Hav Anil Kumar Thakur (No. 13965169Y now JC-697758K),  
01 Nov 2010\*

Hav Surendra Kumar Sahoo (No. 13967171P now JC-  
697913A), 11 Jan 2011\*

Hav Babul Konwar (No. 13967337L now JC-697874M),  
27 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2010 without effect on pay and allces)

Hav Govindan Kutty CM (No. 13966422F now JC-697846A), 01 Dec 2010\*

Hav Satbir (No. 13967624P now JC-697847H), 01 Dec 2010\*

Hav Prem Singh Kathayat (No. 13967647W now JC-697863A), 01 Dec 2010\*

Hav Dunna Krishna Rao (No. 13967824L now JC-697875P), 16 Dec 2010\*

Hav Ramashankar Choudhary (No. 13970241N now JC-697848L), 01 Dec 2010\*

Hav Vinod Chandra Bhatt (No. 13971042M now JC-697866N), 09 Dec 2010\*

Hav Sase Balu Ranganath (No. 13971733Y now JC-697855F), 01 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allces)

Hav Jamal Akhter (No. 13972141F now JC-697877A), 01 Jan 2011\*

Hav Tate Sanjay Kumar Vitthal (No. 13972240K now JC-698325Y), 02 Dec 2011\*

Hav Vivek Kumar (No. 13972596X now JC-697878H), 01 Jan 2011\*

Hav Om Prakash (No. 13974225N now JC-697879L), 01 Jan 2011\*

Hav Sarak Dada Saheb Dhondiram (No. 13974503W now JC-697880A), 01 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allces)

Hav Vishnu Prasad Vishwakarma (No. 13975087K now JC-697932L), 01 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allces)

Hav Daya Ram (No. 13975104Y now JC-697964N), 01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Dental Technician)

Hav A Krishnamurthi (No. 13984018P now JC-697796A), 23 Nov 2010\*

Hav Man Limbu (No. 13985797P now JC-697555A), 15 May 2010\*

Hav Deepak Singh (No. 13985914P now JC-697477N), 26 Feb 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allces)

Hav Laxmikant Srivastav (No. 13988003K now JC-697492H), 08 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allces)

Hav Kishore Kumar Shukla (No. 13987488L now JC-697573H), 08 Jun 2010\*

Hav V Ramesh (No. 13985167P now JC-697669L), 05 Jul 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)

Hav C F Babu (No. 13987359L now JC-698267A), 21 Oct 2011\*

Hav Keshari Singh (No. 13988546W now JC-698224L), 12 Oct 2011\*

Hav Sushil Nath Upadhyaya (No. 13989506F now JC-698326F), 11 Nov 2011\*

Hav Surya Bahadur Thapa (No. 13989330F now JC-698327K), 25 Nov 2011\*

Hav Jayakumar O (No. 13994210M now JC-698268H), 25 Oct 2011\*

Hav Manjeet Singh (No. 13995465Y now JC-698532Y), 10 May 2011\*

Hav Rajesh R (No. 13996334A now JC-698225N), 11 Oct 2011\*

Hav M R Bairs Setti (No. 13996837L now JC-698269L), 19 Oct 2011\*

Hav Prasant Kumar Sahoo (No. 13996901X now JC-698226W), 10 Oct 2011\*

Hav Tajuddin Ahmad (No. 13995772W now JC-698270A), 21 Oct 2011\*

Hav Shahi Ram Pratap Harendra Nath (No. 13996938Y now JC-698271H), 20 Oct 2011\*

Hav Ran Vijai Singh (No. 13998514F now JC-698272L), 01 Nov 2011\*

Hav Basava Raju K (No. 13998880L now JC-698328M), 21 Nov 2011\*

Hav Parashuram Diwanand (No. 13998873P now JC-698329P), 19 Dec 2011\*

Hav Gireesh Babu K (No. 13998978Y now JC-698278M), 17 Oct 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Sep 2011 without effect on pay and allces)

Hav Gopal Chandra Mondal (No. 13998959N now JC-698362M), 05 Nov 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allces)

Hav Mukesh Kumar Singh (No. 13999078F now JC-698330K), 28 Nov 2011\*

Hav Biju Kumar S (No. 13999494L now JC-698300M), 09 Nov 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allces)

Hav Santosh Kumar Singh (No. 13999546W now JC-698391F), 01 Jan 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allces)

Hav R Saravanan (No. 13999726Y now JC-698508P), 01 Apr 2012\*

Hav Sanap Kailas Vithoba (No. 13999875M now JC-698509X), 01 Apr 2012\*

Hav Ananda Kumar M (No. 13998572M now JC-698521Y), 16 Apr 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Dental Operating Room Assistant)

Hav Gaje Singh (No. 13966616K now JC-697489H), 05 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allces)

Hav Ramesh MV (No. 13967133Y now JC-697528W), 08 Apr 2010\*

Hav Pawar Vitthal Yashawant (No. 13967506F now JC-697529Y), 27 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav G Reddeppa (No. 13968811A now JC-697571X), 01 Jun 2010\*

Hav Ramesh Prasad Gupta (No. 13969199N now JC-697671H), 23 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)

Hav Darab Singh (No. 13969580F now JC-697716X), 01 Sep 2010\*

Hav Jagan Nath Hati (No. 13970729K now JC-697717A), 01 Sep 2010\*

Hav Navin Singh Negi (No. 13971010K now JC-698053K), 14 Mar 2011\*

Hav Jasvant Singh (No. 13971048N now JC-697718H), 01 Sep 2010\*

Hav Arun Kumar Sharma (No. 13971390N now JC-697760F), 07 Sep 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allces)

Hav Om Prakash Singh (No. 13971623K now JC-697761K), 12 Oct 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Sep 2010 without effect on pay and allces)

Hav Ashok Kumar (No. 13971761L now JC-697865L), 11 Nov 2010\*

Hav Bhatane Ant Ram Dhondi Ram (No. 13971865M now JC-697762M), 29 Oct 2010\*

Hav Ghavate Sunil Gopinath (No. 13971892W now JC-697765A), 24 Oct 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allces)

Hav Hemlal Sahu (No. 13971975F now JC-697808K), 15 Nov 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allces)

Hav Vishwa Nath Mishra (No. 13972119W now JC-697870W), 24 Dec 2010\*

Hav Kolekar Raghu Sidhappa (No. 139721241M now JC-697871Y), 29 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Nov 2010 without effect on pay and allces)

Hav Virendra Kumar Mishra (No. 13975310H now JC-697927A), 21 Jan 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allces)

Hav Venu Gopal PS (No. 13965705W now JC-697959H), 07 Feb 2011\*

Hav Brahmdeen Pandey (No. 13972809A now JC-697960X), 03 Feb 2011\*

Hav Ravindra Prasad Joshi (No. 13975365M now JC-698013H), 01 Feb 2011\*

Hav Devendra Singh Bora (No. 13984557L now JC-697928H), 07 Feb 2011\*

Hav Ramdayal Pandey (No. 13975528P now JC-697986M), 01 Mar 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allces)

Hav Deepesh Nair BS (No. 13984574L now JC-697973P), 01 Mar 2011\*

Hav Ramesh Kumar Singh (No. 13984646K now JC-697974X), 01 Mar 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allces)

Hav Vinod Prasad Chaube (No. 13985075H now JC-698290N), 22 Oct 2011\*

Hav N Sivakurunathan (No. 13984160Y now JC-698230Y), 14 Oct 2011\*

Hav Sayyad Aminuddin Kamruddin (No. 13984132M now JC-698291W), 29 Oct 2011\*

Hav Kalaskar Ajay Amrut Rao (No. 13984347L now JC-698292Y), 31 Oct 2011\*

Hav Prabir Kumar Das (No. 13984425X now JC-698293F), 09 Nov 2010\*

Hav Sunil Kumar (No. 13985143L now JC-698294K), 25 Oct 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Sep 2011 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Dental Hygienist)

Hav Jayaprakash P (No. 13964681L now JC-697522P), 06 May 2010\*

Hav Lalit Kumar Singh (No. 13964665N now JC-697476L), 22 Feb 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allces)

Hav Shinde Deepak Kumar Sharad (No. 13964917P now JC-697524A), 08 Apr 2010\*

Hav Vijendra Singh Mundawariya (No. 13965035A now JC-697525H), 02 Apr 2010\*

Hav Mahesh Chandra (No. 13966627W now JC-697496Y), 01 Apr 2010\*

Hav Arun Kumar Singh (No. 13966664K now JC-697738W), 01 Apr 2010\*

Hav Gupteshwar Nath Chaturbedi (No. 13966721A now JC-698058H), 02 May 2011\*

Hav Dhanbeer Singh (No. 13967038M now JC-697508H), 01 Apr 2010\*

Hav Rakesh Singh Bhadoria (No. 13968023W now JC-697556H), 20 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Lakhi Borah (No. 13968287X now JC-697585X), 07 Jun 2010\*

Hav Anand Singh Bisht (No. 13968623Y now JC-697740N), 14 Jun 2010\*

Hav Sunil Phwkon (No. 13968640Y now JC-697586A), 02 Jul 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)

Hav Uday Raj Singh (No. 13969363L now JC-697756Y), 01 Nov 2010\*

Hav K Thirugnanasam Bandam (No. 13972920K now JC-697757F), 01 Nov 2010\*

Hav Mohamed Ismail A (No. 13972922P now JC-697803L), 19 Nov 2010\*

Hav S Shen Paha Murthi (No. 13972921M now JC-697804N), 01 Nov 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allces)

Hav Umesh Patale (No. 13972897F now JC-697844P), 01 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allces)

Hav Sunil Kumar Singh (No. 13974227Y now JC-698059L), 02 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allces)

Hav Dabbal Singh Bhandari (No. 13974557X now JC-698180Y), 01 Jun 2011\*

Hav Subrata Deb (No. 13976867F now JC-698116F), 01 Jun 2011\*

Hav Narender Singh (No. 13975099Y now JC-698117K), 02 Jun 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allces)

Hav Koshal Kumar (No. 13980449K now JC-698147F), 01 Aug 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allces)

Hav Shibu Joseph (No. 13977984Y now JC-698227Y), 11 Oct 2011\*

Hav Braj Mohan Pandey (No. 13980447Y now JC-698279P), 31 Oct 2011\*

Hav V Lakshmana Murty (No. 13979926N now JC-698280K), 11 Nov 2011\*

Hav Mithilesh Kumar Singh (No. 13980558W now JC-698228F), 14 Oct 2011\*

Hav Harish Chandra Patel (No. 13980579M now JC-698281M), 31 Oct 2011\*

Hav Ramesh S (No. 13980606L now JC-698282P), 20 Oct 2011\*

Hav Yogesh Chandra (No. 13981371W now JC-698283X), 11 Nov 2011\*

Hav Sudhir Kumar Singh (No. 13980448F now JC-698229K), 17 Oct 2011\*

Hav Pramod Kumar Mishra (No. 13981185A now JC-698284A), 29 Oct 2011\*

Hav Asohan T (No. 13980392A now JC-698285H), 20 Oct 2011\*

Hav Bala Subramanian M (No. 13976431W now JC-698286L), 09 Nov 2011\*

Hav Prem Ballabh (No. 13981661N now JC-698287N), 11 Nov 2011\*

Hav Aswani Kumar Singh (No. 13981676W now JC-698288W), 29 Oct 2011\*

Hav Rahman Khan (No. 13981804H now JC-698289Y), 20 Oct 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav Rajesh Kumar Pandey (No. 13981817A now JC-698332P), 30 Nov 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allces)

Hav Chandra Babu V (No. 13982222P now JC-698333X), 01 Dec 2011\*

Hav Mahender Singh Bisht (No. 13982286A now JC-698386W), 22 Dec 2011\*

Hav Uday Singh (No. 13981410K now JC-698421N), 28 Jan 2012\*

Hav Amar Jeet (No. 13982688X now JC-698334A), 01 Dec 2011\*

Hav Venkatesh K (No. 13981839Y now JC-698335H), 01 Dec 2011\*

Hav Umesh Chandra Tewari (No. 13983218Y now JC-698342Y), 13 Dec 2011\*

Hav Shyam Lal (No. 13983179L now JC-698343F), 03 Dec 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allces)

Hav Khursheed Ahmad (No. 13983177A now JC-698467W), 14 Feb 2012\*

Hav Sarfaraaz (No. 13983186F now JC-698468Y), 24 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Jan 2012 without effect on pay and allces)

Hav Sebastian Verghese E (No. 13983578P now JC-698427P), 18 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allces)

Hav Shaji CK (No. 13983552A now JC-698505F), 26 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Laboratory Assistant)

Hav Zambare Ashok Namdeo (No. 13965725K now JC-697512L), 01 Apr 2010\*

Hav Krishan Lal (No. 13965556N now JC-697511H), 31 Mar 2010\*

Hav N Muthuramalingam (No. 13967080L now JC-697670A), 02 Aug 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav Birendra Prasad (No. 13967492M now JC-697749H), 12 Oct 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav Pane Singh (No. 13967740X now JC-697797H), 06 Nov 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Nov 2009 without effect on pay and allces)

Hav Jangave Ashok Shiv Murti (No. 13968194H now JC-697764X), 25 Oct 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allces)

Hav Rajinder Singh (No. 13968475Y now JC-697925P), 01 Feb 2011\*

Hav Kode Subbarayudu (No. 13968792A now JC-697926X), 01 Feb 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allces)

Hav Muni Kumar Babu PV (No. 13966659Y now JC-697976H), 01 Mar 2011\*

Hav Sukhwinder Singh (No. 13969948Y now JC-697977L), 01 Mar 2011\*

Hav Gangadhar Sahoo (No. 13970102K now JC-697978N), 07 Mar 2011\*

Hav V Debraj (No. 13970097K now JC-697979W), 01 Mar 2011\*

Hav Dhiren Kumar Pani (No. 13970100Y now JC-698265P), 05 Nov 2011\*

Hav M Sivasankaran (No. 13970147K now JC-697980L),  
04 Mar 2011\*

Hav Ram Mohan K (No. 13970215M now JC-697981N),  
07 Mar 2011\*

Hav Anil Kumar (No. 13970419Y now JC-697982W),  
01 Mar 2011\*

Hav Anil Kumar Singh (No. 13971158H now JC-697983Y),  
01 Mar 2011\*

Hav Ranjan Kumar Jena (No. 13971215Y now JC-697987P),  
03 Mar 2011\*

Hav Ram Manohar Yadav (No. 13971209L now JC-697984F), 01 Mar 2011\*

Hav Hari Shankar Bisht (No. 13971141P now JC-697985K),  
01 Mar 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011  
without effect on pay and allces)

Hav Pawar Jitendra Chintamani (No. 13971879M now JC-698028L), 01 Apr 2011\*

Hav Suryavanshi Srihari Ganpat Rao (No. 13971866P now JC-698029N), 01 Apr 2011\*

Hav Upendra Prasad (No. 13972072W now JC-698030H),  
01 Apr 2011\*

Hav Dinesh Kumar (No. 13972090Y now JC-698031L),  
01 Apr 2011\*

Hav Praveen Kumar Mall (No. 13972094P now JC-698216M), 05 Oct 2011\*

Hav Satish Kumar (No. 13972109M now JC-698056X),  
13 Apr 2011\*

Hav Pramod Kumar Choudhary (No. 13972149N now JC-698178F), 11 Apr 2011\*

Hav Someshwar Ghosh Choudhary (No. 13972129A now JC-698057A), 11 Apr 2011\*

Hav Santosh Kumar Pal (No. 13972165L now JC-698108H),  
07 Apr 2011\*

Hav Jeewan Singh Khatri (No. 13972175P now JC-698032N),  
01 Apr 2011\*

Hav Bhoji Mahadev Mallapa (No. 13972253F now JC-698033W), 01 Apr 2011\*

Hav Mustaq Ahmad Mir (No. 13972521A now JC-698034Y), 07 Apr 2011\*

Hav Vilvanathan (No. 13972652L now JC-698011X),  
01 Apr 2011\*

Hav MS Arumugam (No. 13972664A now JC-698035F),  
01 Apr 2011\*

Hav Shirke Arun Nhanu (No. 13972740F now JC-698036K),  
01 Apr 2011\*

Hav Pitamber Rout (No. 13972882Y now JC-698037M),  
01 Apr 2011\*

Hav Kishore Mahanta (No. 13972896Y now JC-698038P),  
05 Apr 2011\*

Hav Bharat Bhusan (No. 13972847W now JC-698039X),  
07 Apr 2011\*

Hav Jangave Ganapati Shivmurti (No. 13973085A now JC-698040M), 01 Apr 2011\*

Hav Magade Zunjar Revansidha (No. 13973445L now JC-698063N), 11 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011  
without effect on pay and allces)

Hav Ram Sahay Singh (No. 13973473X now JC-698109M),  
01 Jul 2011\*

Hav Pusp Raj (No. 13973491A now JC-698110A),  
02 Jul 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011  
without effect on pay and allces)

Hav Suresh Kumr Shivhare (No. 13974398L now JC-698150F), 01 Aug 2011\*

Hav Yudhabir Singh (No. 13974577L now JC-698151K),  
01 Aug 2011\*

Hav Bhupal Singh (No. 13972111K now JC-698199X),  
06 Sep 2011\*

Hav Gajendra Singh (No. 13975144A now JC-698200F),  
16 Sep 2011\*

Hav Mohammad Jabeer (No. 13975163L now JC-698221X), 13 Oct 2011\*

Hav Devi Singh (No. 13975300Y now JC-698533N),  
24 Apr 2012\*

Hav Sagi P (No. 13973426A now JC-698222A),  
05 Oct 2011\*

Hav Arbind Kumar Shukla (No. 13975321P now JC-698223K), 03 Oct 2011\*

Hav Danbeer Singh (No. 13975364K now JC-698201K), 08 Sep 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2011  
without effect on pay and allces)

Hav Lalla Singh (No. 13975344W now JC-698307W), 15 Nov 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011  
without effect on pay and allces)

Hav Rajendra Kumar Pandey (No. 13975366P now JC-698321H), 01 Dec 2011\*



Hav Surendra Singh Rawat (No. 13975363F now JC-698385N), 01 Dec 2011\*

Hav Puran Chand Pathak (No. 13975689X now JC-698331N), 31 Dec 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allces)

Hav Hem Chandra (No. 13975694H now JC-698425K), 01 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allces)

Hav Pratap Kumar Pandab (No. 13975762L now JC-698477A), 01 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allces)

AJAY SAXENA  
Under Secy

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 472, dated 19th October 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

The undermentioned individuals to be Admin Officer, Group 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from the date shown against their names in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Alexander VT, LRDE, Bangalore, 28 May 2012

Rajendran H, LRDE, Bangalore, 28 May 2012

Gopalakrishnan V, LRDE, Bangalore, 28 May 2012

Meenakshi D, LRDE, Bangalore, 28 May 2012

V Thandavan, LRDE, Bangalore, 14 Jun 2012

Ebenezer Ponniah D, LRDE, Bangalore, 14 Jun 2012

PM Stella, DMRL, Hyderabad, 31 May 2012

H Prasanna, DMRL, Hyderabad, 31 May 2012

M Aruna, DMRL, Hyderabad, 31 May 2012

UV Subramanya Sarma, DMRL, Hyderabad, 31 May 2012

Mario Maaria Das, DMRL, Hyderabad, 14 Jun 2012

P Shiv Raj, DMRL, Hyderabad, 25 Jun 2012

BC Venkatesh, GTRE, Bangalore, 21 Jun 2012

HG Nagaraj, GTRE, Bangalore, 28 Jun 2012

Ida Lobo, HEMRL, Pune, 20 Jun 2012

Geeta Krishnaswamy, HEMRL, Pune, 20 Jun 2012

CS Telekine, HEMRL, Pune, 20 Jun 2012

JR Kamble, HEMRL, Pune, 20 Jun 2012

SA Jadhavrao, HEMRL, Pune, 25 Jun 2012

PB Pawar, HEMRL, Pune, 27 Jun 2012

The undermentioned individuals to be Admin Officer, Group 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from the date shown against their names in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Daya Ram Seju, DL, Jodhpur, 28 May 2012

Khiya Ram, DL, Jodhpur, 28 May 2012

SD Parate, TBRL, Chandigarh, 11 Jun 2012

P Kuppuswamy, DEBEL, Bangalore, 08 Jun 2012

K Geetha Gopinathan, GTRE, Bangalore, 06 Jun 2012

P Damodar Reddy, DLRL, Hyderabad, 28 May 2012

G Madhusudhana Reddy, DLRL, Hyderabad, 29 May 2012

Mridula Sasi, GTRE, Bangalore, 06 Jun 2012

R Kothainatchi, GTRE, Bangalore, 06 Jun 2012

L Sowbhagya, GTRE, Bangalore, 06 Jun 2012

GSR Murthy, ASL, Hyderabad, 30 May 2012

S Sai Kumar, ASL, Hyderabad, 30 May 2012

V Chandra Shekhar, ASL, Hyderabad, 30 May 2012

Jagdish, ASL, Hyderabad, 30 May 2012

Razia Sultana, ASL, Hyderabad, 31 May 2012

PSK Prasad, ASL, Hyderabad, 06 Jun 2012

Jyothi Singh, ASL, Hyderabad, 14 Jun 2012

TR Chitharenjan, NPOL, Kochi, 14 Mar 2012

R Rajasegaran, GTRE, Bangalore, 13 Jun 2012

VP SINGH  
Dy Dir (Pers)

#### ARMY BRANCH

No. 473, dated 19th October 2012—The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31st May 2012

(IC-35520) Col Kuldeep Singh Choudary, Inf

(IC-35606) Col Gyanendra Kumar Pandey, Arty

(IC-35921) Col Pardeep Kumar Dogra, AAD

(IC-35977) Col (TS) Devendra Kumar Rawal, Inf

(IC-37744) Col (TS) Rajinder Singh Dhillon, AOC

(IC-37873) Col (TS) Ajit Rama Rane, Engrs

(IC-37933) Col (TS) Gurbrinder Singh Cheema, EME

(IC-37940) Col S Raman, Inf	(IC-41890) Col Chandra Mohanan R, Arty
(IC-37946) Col (TS) Jodh Singh Dhillon, Inf	(IC-41980) Col (TS) KN Radhakrishnan, Engrs
(IC-37994) Col (TS) Manjit Singh, AC	(IC-42342) Col (TS) Dalbir Singh, Mech Inf
(IC-38036) Col (TS) Aylliath Vijaya Kumar, Arty	(IC-42450) Col Varghese MP, Arty
(IC-38068) Lt Col Shailendra Kumar Attri, Arty	(IC-42477) Col (TS) Reji Kurian, AAD
(IC-38084) Col (TS) Pradeep Srivastava, Arty	(IC-42519) Col (TS) Himanshu Ratna, Arty
(IC-38146) Col (TS) Bhup Narayan Sah, Arty	(IC-42593) Col (TS) Madan Lal Sharma, Arty
(IC-38320) Col (TS) Ashok Parmar, Arty	(IC-42644) Col (TS) Ghisa Ram Yadav, Inf
(IC-38327) Col (TS) Vijaykumar Gopalrao Jagdale, Arty	(IC-42650) Col (TS) Prafulla Kumar, EME
(IC-38404) Col (TS) Hares Limbachia, Inf	(IC-42850) Col (TS) Narendra Singh, Arty
(IC-38690) Col Vimal Kumar Mohla, Inf	(IC-42884) Col (TS) AD Tensingh Refus Gnanasir, Sigs
(IC-38769) Col (TS) Kulwaran Singh, Inf	(IC-42985) Col (TS) Harish Chander Singh, ASC
(IC-38826) Col Girish Babu R, AAD	(IC-48187) Lt Col V Jayaprakash, Arty
(IC-38969) Col (TS) Vijay Kumar Pant, ASC	(IC-48376) Lt Col Manjit Singh, ASC
(IC-39043) Col Bhupendra Kumar Chhimwal, EME	(IC-03439) Col (TS) Bharat Bhushan, AEC
(IC-39193) Col (TS) Nanda Ballabh, Inf	(SL-03560) Lt Col Satish Chandra, RO
(IC-39394) Col (TS) Manoj Chaturvedi, Inf	(SL-03989) Lt Col Jaswinder Singh, RO
(IC-39415) Col Nadipireddygar Prasad Reddy, AEC	(SL-04003) Lt Col Jagdish Singh Gill, EME
(IC-39737) Col (TS) Rupinder Mall, AC	
(IC-39839) Col (TS) Ashok Kumar Mohapatra, AEC	
(IC-39852) Col (TS) Inder Mohan, AEC	

JAYANTA CHAKRABARTY

Dy Dir

MS-7A

for Military Secy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012